

# सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजर आर. मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेष्ट  
श्री स्वामी रामानंद  
दासजी महाराज  
श्री रामानंद दास अनन्यसेवा  
ट्रस्ट, तपोवन आश्रम



स्व. पं.पू. 1008 श्री रामानंद जी  
तपोवन मंदिर, मोगा गांव, सूरत

वर्ष-9 अंक: 237 ता. 02 मार्च 2021, मंगलवार, कार्यालय: 114, न्यु प्रियंका टाउनशिप अपार्टमेंट, डिंडोली, उधना सूरत ( गुजरात ) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

## आतंकी घटनाओं से बचने के लिए J&K के एयरपोर्ट में बनेगी पुलिस पोस्ट

● अधिकारियों ने कहा कि कुमार के साथ निदेशक, हवाई अड्डा, डीआईजी केंद्रीय कार्मर रेंज, क्षेत्रीय निदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बडगाम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट थे।



नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने रिवार को अपनी सुरक्षा गिड की समीक्षा करने के लिए शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। यहाँ उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए परिसर के अंदर एक फौजदारी पुलिस पोस्ट बनाने का फैसला किया। अधिकारियों ने कहा कि कुमार के साथ निदेशक, हवाई अड्डा, डीआईजी केंद्रीय कार्मर रेंज, क्षेत्रीय निदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बडगाम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट थे। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कुमार को हवाई अड्डे की सुरक्षा और विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों के साथ जानकारी दी गई थी। अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, IGP कश्मीर ने हवाई अड्डे पर सुरक्षा के रखरखाव के लिए की गई पहलों पर चर्चा की और अधिकारियों से कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय सुनिश्चित करें। अधिकारी ने कहा कि ड्रॉप गेट पर और टर्मिनल के अंदर यात्रियों की भीड़ को कम करने और उनके सामान आवागमन की सुविधा के लिए विभिन्न रणनीतियों को भी तैयार किया गया है।

## कोवैक्सिन की डोज लेकर

# पीएम मोदी ने भारत बायोटेक के टीके पर सवाल उठाने वालों को दिया बड़ा संदेश



कोविड-19 मुक्त बनाएँ! 'सबसे पहले पीएम मोदी लगवाएँ वैक्सीन' कोरोना वैक्सिनेशन का पहला चरण

● पीएम मोदी ने टीवीट किया, 'एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कम समय में मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि जो लोग कोरोना टीका लगाने के लिए योग्य हैं वे वैक्सीन लें। आइए, साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएँ।'

बीजेपी के नेताओं ने सबसे पहले यह न्यौतें नहीं लगवाईं। हालांकि, तब भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पीएम मोदी अपनी बारी आने पर ही टीका लगवाएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी उदाएँ सवाल कोवैक्सिन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टीवीट करते हुए कहा कि कोवैक्सिन का अभी तक तोसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, बिना सोच-समझे अनुमति दी गई है जो कि खतरनाक हो सकती है। अखिलेश यादव ने बताया था बीजेपी की वैक्सीन समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा।

मुझे इनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन करार दिया था। डॉक्टरों ने भी जाहिर किया था आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन को लेकर संशय जाहिर किया था। डॉक्टरों ने इसको लेकर एक पत्र मेडिकल सुपरिटेण्डेंट को लिखा था। कोवैक्सिन का जब इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी तब तक इसके तीनों चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने हमेशा यह कहा है कि कोवैक्सिन सुरक्षित है और इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं हैं।

## 120 सालों में देखी गई दूसरी बार सबसे गर्म फरवरी

इस बार बरसेगा गर्मी का कहर?

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने फरवरी को लेकर ह्यान कर देने वाले आंकड़े जारी किए हैं। बताया गया है कि इस बार फरवरी के महीने में सबसे अधिक तापमान देखा गया। 120 सालों में दूसरी बार इतनी गर्म फरवरी देखी गई। तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने का औसत तापमान 27.9 डिग्री रहा। साथ ही आईएमडी ने ये भी बताया कि 120 सालों में ऐसा दूसरी बार देखा गया है। मौसम विभाग ने 1901 से लेकर अब तक के डेटा के आधार पर ऐसा कहा है, इससे पहले 1960 में फरवरी महीने का औसत तापमान 27.9 डिग्री रहा था। जबकि 2006 में फरवरी का महीना सबसे गर्म दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने कहा कि रिवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से तीन डिग्री अधिक था। जबकि अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने सोमवार को सुबह धुंध के

साथ साफ आसमान की भविष्यवाणी की है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वास्तविक आंकड़ों में दिल्ली का AQI 211 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एन्यूआई) के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूरे दिन खराब श्रेणी में रही।

## मुंबई में चीन ने कराई थी बत्ती गुल, पूरे भारत में ब्लैकआउट कराने की थी तैयारी

नई दिल्ली। बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी। यही नहीं उसके इस साइबर अटैक की वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैक आउट हो गया था। पूरे शहर में बत्ती गुल हो गई थी और कोरोना काल में अस्पतालों में जनरेटर से काम चलाना पड़ा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चीन की इस हिमाकत का दावा किया गया है। गलवान हिंसा के चार महीने बाद मुंबई में अचानक बिजली गुल होने की वजह से ट्रेनों बंद हो गई थीं और स्टॉक मार्केट भी ठप हो गया था। बत्ती गुल होने से शहर के 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए थे। अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर चालू करने पड़े थे ताकि वेंटिलेटर चलते रहें। यह वही दौर था जब भारत में कोरोना अपने चरम पर जा रहा था। बीते साल 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था। अब एक नए अध्ययन से यह पता लगा है कि ये सब घटनाएं आपस में जुड़ी थीं। उस समय की न्यूज रिपोर्ट्स में भी भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह दावा

मुंबई में हुई थी बिजली गुल, जहां-तहां खड़ी रही लोकल ट्रेनें

● बीते साल मुंबई में गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया था। मुंबई महानगरीय क्षेत्र में गिड फेल हो गई थी। मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट (ब्रह्मरा) ने कहा था कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से गिड फेल हो गए थे। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई थी। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गिड फेल होने का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी पड़ा था और जहां-तहां ट्रेनें खड़ी हो गई थीं।

यह सब घटनाएं चीन के एक बड़े साइबर अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत के पावर गिड को ठप करना था। इतना ही नहीं चीन ने तो यहां तक योजना बना ली थी कि अगर गलवान में भारत दबाव बनाता है तो वह पूरे देश को अंधेरे में डूबा देगा। स्टडी से यह खुलासा हुआ है कि हिमालय में जारी गतिरोध के बीच चीनी मैलवेयर भारत में बिजली सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में घुस चुके थे। इसमें हार्ड वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। चीनी साइबर अटैक का खुलासा अमेरिकी साइबर फर्म Recorded Future ने किया। हालांकि, कंपनी ने यह भी पाया कि अधिकतर मैलवेयर कभी ऐक्टिव नहीं हुए। कंपनी के चीफ ऑपरिंग ऑफिसर स्टुअर्ट सोलोमन ने बताया कि कैसे चीन की कंपनी नक्सल थ्रस्ट्रथ ने साइबर हमले की एडवांस तकनीक का सहारा लेकर भारत के करीब एक दर्जन पावर गिड को गुप्तचर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की।

## कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील एवं व्यसनी हैं, पबजी एक उदाहरण है : जावडेकर

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कई मोबाइल गेम 'हिंसक, अश्लील और व्यसनी' हैं और पबजी बस एक उदाहरण है, इसलिए सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग उद्योग को केंद्र स्थापित करने की योजना बनायी है। पबजी चीनी मूल के उन 100 से अधिक मोबाइल एप में शामिल हैं जिनपर पिछले साल सरकार ने पाबंदी लगायी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय ने गैर-प्रत्यक्ष, गेमिंग और एनीमेशन से जुड़े पाठ्यक्रमों के अध्यापन




महाराष्ट्र खिलाती/खेल/प्रोजेक्ट डिजायन प्रतिस्पर्धा 'खेल खेल में' आभासी एवं पुस्तक वितरण में मंत्री ने कहा है पाठ्यक्रम इसी साल शुरू हो जायेंगे। मंत्री ने कहा, 'यह घोषणा करते हुए

के लिए गेम सेंटर बनाने का निर्णय लिया है ताकि ऐसे गेम विकसित किये जाएं जो भारतीय मूल्यों का सर्वर्धन करें। अखिल प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है। हम तैयारी के आखिरी चरण में हैं और 2021 से नया सत्र शुरू हो जाएगा।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल्यों, धरोहर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने एवं उनका संवर्धन करने के लिए बेताब हैं और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे देश के बच्चे एवं युवक हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा से परिचित हों।

## महाराष्ट्र में बढ़ रहा कोरोना के खौफ, इस जिले में सात दिन का कर्फ्यू

नई दिल्ली। महाराष्ट्र तथा हिंगोली जिला में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष रमेश जयवंशी सात दिन का कर्फ्यू लागू किया है, जो सोमवार सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार हिंगोली जिला में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक मार्च सुबह सात बजे से कर्फ्यू शुरू होगा तथा सात




मार्च को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों और कैटीनों में हर तरह की आवाजाही (व्याक्ति / वाहन) वर्जित रहेगी। इस दौरान हालांकि दूध विक्री केंद्र, दूध विक्रेताओं को सुबह नौ बजे से शाम बजे तक काम करने की इजाजत होगी। इस दौरान सभी सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा। वहीं

सभी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, सभी विद्यालय, कॉलेज तथा शादी समारोह स्थल और लॉन बंद रहेंगे। दवा की दुकानों को इस दौरान खोलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पत्रकारों को दफ्तर आने तथा रिपोर्टिंग करने की इजाजत होगी। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर काम करने की अनुमति होगी। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित निर्माण, सरकारी विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), महट्रास्पॉर्ट और अन्य बिजली से संबंधित विभागों से रखरखाव और मरम्मत कार्य, दूरसंचार संबंधित सेवाएं, जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता कार्य की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप केवल सरकारी वाहनों, आवश्यक सेवा वाहनों और कृषि सेवा से संबंधित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति जारी रखेंगे।

## भांजे नीरव मोदी के बाद अब मामा की मुसीबत, एंटीगुआ और बारबुडा ने रद्द की मेहुल चोकसी की नागरिकता

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक को तगड़ा चूना लगा चुके मेहुल चोकसी को कैरेबियाई राष्ट्र के निवेश कार्यक्रम के तहत मिली नागरिकता को एंटीगुआ और बारबुडा ने रद्द कर दिया है। कुछ दिन पहले ही फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा आरोबारी मेहुल चोकसी पर हुई छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जप्त की थी। चोकसी लंबे समय से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। इधर, उसके पार्टनर-इन-क्राइम भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। बता दें कि मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है।

नीरव मोदी भी 13,500 करोड़ रुपये से अधिक के इस कथित धोखाधड़ी मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी है। हाल ही में नीरव मोदी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपना केस हार गया है। इसके बाद भारत ने कहा है कि नीरव मोदी के मामले में ब्रिटेन के कोर्ट के फैसले के बाद उसके प्रत्यर्पण के लिए जल्द संपर्क किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने मामला वहीं के होम सेक्रेटरी के पास भेजा है। उनके अप्रवृत्त पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी। फिलहाल इसके लिए दो महीने का वक्त मिल सकता है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में भारत में



वांछित है। सीबीआई और इंडी के अनुरोध पर ब्रिटेन से उसका प्रत्यर्पण अगस्त, 2018 में मांगा गया था। नीरव मोदी लंदन की वांडेसवर्थ जेल में बंद है। लंदन कोर्ट में जज सेमुअल गुजी के फैसले के बाद मामला अब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास जाएगा। प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री प्रीति पटेल आखिरी मोहर लगाएंगी। इसके बाद भारत के इस वांटेड भगोड़े को मुंबई जेल लाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि, उसके तुरंत भारत आने की संभावना कम है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा। फैसले के

खिलाफ वह हार्डकोर्ट में अपील कर सकता है। नीरव के पास अपील के लिए 28 दिनों का वक्त है। हार्डकोर्ट से इत्का लगने के बाद वह मानवाधिकार कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात करते हुए यूरोपीय अदालत में जाने का विकल्प होगा। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के लोन की धोखाधड़ी की। यह धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिए की गई। उस पर भारत में बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दो प्रमुख मामले सीबीआई

और प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं। हीरा कारोबार से पहचान बनाने वाला नीरव मोदी मूल रूप से गुजरात के रहने वाला है। उसके पिता हीरे के व्यापार से जुड़े थे और इसे ही नीरव मोदी ने आगे बढ़ाया। नीरव तब खासे चर्चा में आया, जब 2010 में नीलामी में नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड का गोलकुंडा नेकलेस 16.29 करोड़ रुपये में बिका। 2016 की फोर्ब्स की सूची के अनुसार, 11, 237 करोड़ की संपत्ति के मालिक नीरव देश के सबसे रईस लोगों की सूची में 46वें स्थान पर था।

सार समाचार

भाजपा का कोलकाता पुलिस पर निशाना, सोमन मित्रा को पत्र लिखकर लगाया आरोप

कोलकाता। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त सोमन मित्रा को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि 27 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान 'डाक मतपत्रों' के संग्रहण एवं छद्म मतों की खातिर पुलिस बल के अंदर अवैध कवायद चल रही है। भाजपा सांसद स्वयं दासगुप्ता और वरिष्ठ नेताओं- सख्यसाची दाता एवं शिशिर बाजोरिया के दस्तखत वाले इस पत्र में पार्टी ने दावा किया कि वेल्फेयर एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग इस अभियान के तहत सभी रैक के अपने सहयोगियों के मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतियां जमा कर रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह 'डिजिटल अवैध कवायद' है एवं किसी के मतदान के मौलिक अधिकार को छीन लेने जैसा है। 'भगवा दल' ने कहा, "शांतनु सिन्हा विश्वास नाम के एक इन्स्पेक्टर इस कवायद की अगुवाई कर रहे हैं तथा दो इन्स्पेक्टर - तपन कुमार मैती और बिजितास्य राउत उनकी मदद कर रहे हैं।"

उपराष्ट्रपति वैकेया नायडू ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली



नयी दिल्ली। उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने सोमवार को चेन्नई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई और सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील की। उन्हें 28 दिनों बाद बूस्टर जोज दी जाएगी। नायडू ने टीका लगवाने हुए अपनी तस्वीर भी साझा की। नायडू ने उप राष्ट्रपति सचिवालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से टवीट किया, 'मैंने राजकीय मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में आज कोविड-19 टीके की अपनी पहली खुराक लगाई। मैं 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक लगाऊंगा।' नायडू ने ऐसे सभी लोगों से खुद को सक्रियता से टीका लगवाने की अपील की जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं और कहा कि ऐसा कर 'एप कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो'। इससे पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय राजधानी स्थित एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई थी।

कोरोना वायरस महामारी: कश्मीर में करीब एक साल के बाद स्कूल खुले

श्रीनगर। कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से करीब एक साल से बंद स्कूल सोमवार को दोबारा खुल गए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नौ मार्च को आखिरी बार नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल गए थे। प्रशासन ने हालांकि, उन्हीं विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दी है जिनके माता-पिता ने लिखित में इसकी मंजूरी दी है। अधिकतर निजी स्कूल अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रहे हैं ताकि प्रबंधन पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर आरोप नहीं लगे। पहले दिन कई स्कूलों ने विद्यार्थियों को स्वस्थ होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आने को कहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक छठी से आठवीं तक की कक्षाएं आठ मार्च से खुलेंगी जबकि बाकी कक्षाएं 18 मार्च से खुलेंगी।

कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए पृथ्वीराज चव्हाण को बनाया स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के वास्ते सोमवार को एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। चव्हाण कांग्रेस नेताओं के 'गुपु 23' का हिस्सा है जिसने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में आमूल-बूल बदलाव एवं हर पद के लिए निर्वाचन की मांग की थी।

प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोलीं- असम में सीएए लागू करने पर साध रखी है चुप्पी

लखीमपुर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा नेता देश भर में घूम-घूम कर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन असम में आतं ही वे इस पर चुप्पी साध लेते हैं। सीएए के खिलाफ असम में 2019 में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उनमें पांच लोगों की जान चली गई थी। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस और छह अन्य पार्टियों का महागठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद असम में सरकार बनाएगा क्योंकि राज्य के लोग भाजपा के झूठे वादों से आजिज आ गये हैं। कांग्रेस नेता ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'चुनाव से पहले भाजपा बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन अगले पांच वर्षों के दौरान वे लोग उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करेंगे और लोगों को यह समझ आ गया है।'

योगी आदित्यनाथ ने कहा- जेवर हवाईअड्डे का निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता है

लखनऊ। (एजेंसी।)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, जेवर के विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजना बताने के लिए कहा कि कोविड-19 की विभीषिका के बावजूद अब तक जिस तेजी, पारदर्शिता और तय समय से जेवर एयरपोर्ट के काम हुए हैं, उसने प्रदेश की नई कार्यसंस्कृति को प्रदर्शित किया है। इस एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के कार्यों को सहायता करते हुए उनके प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद मिलेगी।



एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा

इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच राज्य समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर होने के मौके पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में सिर्फ दो हवाई अड्डे (लखनऊ और वाराणसी) ही क्रियाशील थे। मात्र तीन वर्ष में गोरखपुर, हिंडन, आगरा, प्रयागराज और अब बरेली सहित पांच अन्य हवाईअड्डे परिचालन में आ गये हैं। यही नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश

में मात्र दो अंतरराष्ट्रीय 'इंटरनेशनल' एयरपोर्ट थे, लेकिन कुशीनगर और अयोध्या के एयरपोर्ट के साथ बहुत जल्द यहां पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे।

जेवर एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित परिवारों के विस्थापन कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों से संवाद बनाया जाए। उनके बेहतर विस्थापन की व्यवस्था हो। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि विस्थापित आबादी के पुनर्वास के लिए जेवर बांगर में 48.0979 हेक्टेयर भूमि का प्रबंध कर लिया गया है। मुख्यमंत्री आवाम पर सम्पन्न समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के मौके पर राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन एस पी गोयल, सचिव मुख्य मंत्री और नागरिक उड्डयन सुरेंद्र सिंह, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से सीओओ डॉ. अरुण वीर सिंह और नोडल ऑफिसर नोएडा एयरपोर्ट सैलेंद्र भाटिया तथा ज्यूरिख की कम्पनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से क्रिस्टोफ श्लेनमन, किरन जैन और शोभित गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।

महाराष्ट्र सरकार करों में कटौती करके राहत प्रदान कर सकती है : देवेंद्र फडणवीस

मुम्बई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य में एमवीए सरकार ईंधन के दाम में वृद्धि के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है जबकि वह करों में कटौती करके राहत प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि लिटर पेट्रोल पर केंद्र द्वारा लगाये गये कर 70 रुपये तक होते हैं और यह राशि विभिन्न तरीकों से राज्यों को दे दी जाती है तथा राज्य द्वारा लगाया गया शुल्क 27 रुपये तक होता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार जो शुल्क लगाती है, उसे वह घटा सकती है और आम आदमी को राहत दे सकती है।" जब उनसे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले द्वारा ईंधन के बढ़ते दाम के विरुद्ध साईकिल रैली निकाले जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद वह "ईंधन पर कर कटौती का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हों क्योंकि करो की कटौती की चर्चा चल रही है।" भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी एमवीए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर काटे जा रहे बिजली कनेक्शन के विरुद्ध आवाज उठाएगी क्योंकि इससे लोगों खासकर किसानों को बड़ी परेशान हो रही है।



द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, 50 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। (एजेंसी।)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (एमआइएस) 2021 का वचुंअली उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में कई देश भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीओओ और राजदूत भी शामिल होंगे।

50 देशों के एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने एमआइएस समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है। यह कार्यक्रम दो मार्च से चार मार्च तक चलेगा। केंद्रीय बंदरगाहों के स्वतंत्र प्रभार, जहाजनाजी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए कहा 'प्रधानमंत्री कल समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। समुद्री क्षेत्र अपने देश के साथ-साथ विदेशों में भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैरिटाइम विजन तैयार किया है।'

उन्होंने कहा, 'भारतीय समुद्री क्षेत्र में आधुनिकीकरण, विकास, क्रूज पर्यटन, रोपेक्स फेरी सेवा, सीप्लेन सेवा की मांग बढ़ रही है। पूरी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है।' उन्होंने



आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए कहा, 'इसमें प्रधानमंत्री दुनिया के सामने मैरिटाइम विजन भी रखेंगे। दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के लोगों ने एमआइएस समिट 2021 के लिए पंजीकरण किया है। एक लाख 17 हजार प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है। विभिन्न देशों की बड़ी कंपनियों के 100 से अधिक CEO इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें कई देशों के राजदूत भी शामिल हैं। बहुत उत्साह की बात है कि दुनिया भारत

के समुद्री क्षेत्र में निवेश करना चाहती है।' पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के एक अधिकारी ने एएनआइ को बताया कि एमआइएस 2021 के माध्यम से तीन लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद है और मैरिटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण के दौरान लगभग 400 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

जेपी नड्डा ने मंदिर कॉरिडोर निर्माण कार्यों का लिया जायजा, बाद में बूथ अध्यक्षों की बैठक में हुए शामिल

लखनऊ। (एजेंसी।)

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और मंदिर कॉरिडोर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद बूथ अध्यक्षों की बैठक में कहा कि संघटन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा की शक्ति उसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। जिसने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार नड्डा ने सोमवार को अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया और पार्टी को मजबूती देने के लिए कई संगठनात्मक बैठकें भी कीं। नड्डा ने वाराणसी के मध्यमेश्वर मंडल के बूथ अध्यक्ष राजेश यादव के घर पर अल्पाहार लिया और सांध्य आतिथ्य के लिए यादव परिवार का आभार जताया। बाबा विश्वनाथ की पूजा



अर्चना के बाद नड्डा ने वाराणसी महानगर के मध्यमेश्वर मंडल की एक बूथ समिति की बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक में बूथ मजबूत करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के घरों पर जाने और उनके सुख-दुख में शामिल होने तथा उनकी परेशानियों को हल करने में काम आने की नसीहत दी। वाराणसी के दो दिवसीय दौर के दूसरे दिन नड्डा ने पत्रकारों से कहा कि अध्यात्म की उदगम स्थली काशी सूरियों से दुनिया को अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जन जन के कल्याण की राह

दिखा रही है। हर बार की भांति इस बार भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति के पथ पर तेज गति से अग्रसर है और दुनिया में भारत का नाम प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मोदी वाराणसी के जनप्रतिनिधि हैं। सर्वप्रथम नड्डा ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किये और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्य सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। बूथ अध्यक्ष के घर अल्पाहार के बाद नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल, पंडव पहचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का भ्रमण किया।

'चिपकाने वाले बम' की बरामदगी से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के नए चरण के मिले संकेत, सुरक्षाकर्मी सतर्क

जम्मू। (एजेंसी।)

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर से पिछले महीने जन्म 'चिपकाने वाले बम' की बरामदगी से राज्य के सुरक्षा प्रतिष्ठान काफी सतर्क हो गए हैं क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के नए चरण की शुरुआत की ओर संकेत है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ ने जम्मू क्षेत्र के सांबा सेक्टर में 14 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रेन से गिराए गए एक बम को जल्द किया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और उनका अनुमान था कि कुछ आईईडी कश्मीर घाटी में पहुंच चुके हैं।



अधिकारियों के मुताबिक, ड्रेन से गिराए गए हथियारों की खेप में छह पिस्तौल और 14 परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) थे जिनके अंदर चुंबक लगा हुआ था। इनका इस्तेमाल वाहनों पर चिपकाने वाले बम के तौर पर किया जा सकता था और उन्हें टाइमर तथा रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि यह खेप द रेंजियर्स फोर्स (टीआरएफ) के लिए था जिसे लश्कर ए तैयबा समूह से जुड़ा हुआ माना जाता है।

'चिपकाने वाले बम' का निश्चित तौर पर इस तरह की पहली बरामदगी थी जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान एवं इराक में होता आया है। भारत में इसका इस्तेमाल ईरान के सौदिया आतंकवादियों ने फरवरी 2012 में किया था। उन्होंने इजरायल के एक राजनयिक की कार में बम चिपका दिया जिससे उनकी पत्नी जख्मी हो गई थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगी कश्मीर में चिंतन का विषय है और इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के काफिले को आवाजही पर मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ेंगी देश में अचानक सूखा पड़ने की घटनाएं, अध्ययन में किया गया दावा

नवी दिल्ली। (एजेंसी।)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईटी), गांधीनगर के अनुसंधानकर्ताओं के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में भारत में अचानक सूखा पड़ने की घटनाओं में वृद्धि होगी। इसका फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सिंचाई की मांग बढ़ेगी और भूजल का दोहन बढ़ेगा। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक, मिट्टी की नमी में तेजी से कमी आने के चलते अचानक सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ेंगी।

गांधीनगर स्थित आइआईटी के अध्ययन में किया दावा उन्होंने बताया कि परंपरागत सूखे

की तुलना में अचानक सूखा पड़ने से दो-तीन हफ्ते के अंदर एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, इससे फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ेगी। हालांकि भारत में वर्तमान और भविष्य की जलवायु में अचानक सूखे की घटनाएं और उनके प्रभाव के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। यह अध्ययन एनपीजे क्लाइमेट एंड एटमोस्फेरिक साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें ग्रीष्म मानसून के दौरान पड़ने वाले सूखे में मानव जनित जलवायु परिवर्तन की भूमिका की पड़ताल की गई है।

अचानक सूखा पड़ने की घटनाओं में करीब सात गुना वृद्धि होने का अनुमान

अनुसंधानकर्ताओं ने देश में अब तक देखे गए और भविष्य के जलवायु परिवर्तनों के तहत अचानक सूखे की घटनाओं की पड़ताल के लिए मिट्टी में नमी की प्रक्रिया, भारतीय मौसम विभाग के अवलोकन और जलवायु अनुमानों का इस अध्ययन में उपयोग किया। अध्ययन टीम ने इस बात का जिक्र किया है कि 1951 से 2016 के बीच सबसे भीषण अचानक सूखा 1979 में पड़ा था, जब देश का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ था। शोधकर्ताओं का कहना है कि 21वीं सदी के अंत तक 1979 जैसी अचानक सूखा पड़ने की घटनाओं में करीब सात गुना वृद्धि होने का अनुमान है।

भारत में जलवायु की गंभीर स्थितियां होने का अनुमान आइआईटी गांधीनगर में सिविल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर विमल मिश्रा ने कहा, 'हमने पाया कि मानसून में अंतराल से या मानसून आने में देरी से भारत में अचानक सूखा पड़ने की स्थिति देखी गई है तथा भविष्य में अचानक सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ेंगी। शोधकर्ता सरन आधार और शांति स्वरूप महतो ने भी कहा कि भविष्य में भारत में जलवायु की गंभीर स्थितियां होने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे हैं और शुष्क स्थितियों की वजह से अचानक सूखे की घटनाओं में वृद्धि होगी।



सार समाचार

**भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी दोषी करार, कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई**



पेरिस। फ्रांस में पेरिस की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और एक साल जेल और दो साल निलंबित कारावास की सजा सुनायी। फ्रांस में 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे सरकोजी (66) को 2014 में एक बरिष्ठ मजिस्ट्रेट से अदोष तरीके से सुनवाई हासिल करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि सरकोजी घर पर हिरासत में रहने का अनुरोध कर सकते और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पट्टी पहननी होगी। सरकोजी 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अदोष धन के इस्तेमाल के आरोप में 13 अन्य लोगों के साथ इस महीने एक और मुकदमे का सामना करेंगे।

**चीन ने पीएलए के पूर्व जनरल को शीर्ष संसदीय समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया**

बीजिंग। चीन ने जनरल झाओ जोंगकी को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की प्रभावशाली विदेश मामलों की समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पूर्व शीर्ष अधिकारी हैं जो भारत के साथ लड़ती सीमा पर तैनात थे। जनरल झाओ 2017 में जेकलाम गतिरोध और 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान पश्चिम कमान के प्रमुख थे। पीएलए के नियमों के मुताबिक चीन में शीर्ष जनरल के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। एनपीसी की तरफ से जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक जनरल झाओ को एनपीसी के प्रभावशाली विदेश मामलों की समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनपीसी की पांच मार्च से शुरू हो रही वार्षिक बैठक से पहले यह नियुक्ति की गई है।

**जयशंकर ने की न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री से बातचीत, कोविड-19 और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा**

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की अपनी समकक्ष नगारा मुहता से बातचीत की और कोविड-19 की चुनौतियों एवं द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा की। जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा, "न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नगारा मुहता से पहली बार बात करके अच्छे लगा। कोविड-19 की चुनौतियों एवं जल्दी स्थिति बेहतर होने की हमारी उम्मीदों को लेकर चर्चा की।" उन्होंने कहा कि साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय आयामों एवं हिन्द प्रशास पर चर्चा हुई। एक-दूसरे से मुलाकात करने को लेकर आशावादी हैं।

**इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बताया अपना सबसे बड़ा दुश्मन**

यरुशलम। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान पर आरोप लगाया कि उसने पिछले हफ्ते ओमान की खाड़ी में इजराइली स्वामित्व वाले एक माववाहक जहाज पर हमला किया। नेतन्याहू ने इजराइल के सार्वजनिक प्रसारण 'कान' से बातचीत में कहा कि फ्रवह वास्तव में ईरान का कृत्य है, यह स्पष्ट है। फ्रवह नेतन्याहू ने कहा, फ्रवहजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, मैं इसे रोकने के लिये प्रतिबद्ध हूँ। हम पूरे क्षेत्र में वापस कर रहे हैं। फ्रवहजराइल को ओमान की खाड़ी में इजराइली स्वामित्व वाले पाँच एनपीसी हेलिकॉप्टरों में रहस्यमयी तरीके से उस तक विस्फोट हुआ जब वह सिगापुर जा रहा था। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस घमाके में चालक दल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था लेकिन जहाज में चार छेद हो गए थे। रविवार को उसे मरम्मत के लिये दुबई के बदरगाह लाया गया था। घमाके से पहले जहाज ने कई बदरगाहों पर कार उतारी थी। घमाके के बाद हालांकि उसे आगे की यात्रा टालनी पड़ी और मरम्मत व निरीक्षण के लिये उसे दुबई बदरगाह लाया गया। हाल के दिनों में इजराइल के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों ने संकेत दिये थे कि वे हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार मानते हैं। इजराइल के आरोपों पर फिलहाल ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस घटना ने पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में नए तिर से सुरक्षा चिंताएं पैदा की हैं।

# 16 भूमिगत आईसीबीएम साइलो का निर्माण कर रहा है चीन, अमेरिका ने दिए संकेत

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने उग्रह से ली गई चीनी मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र में हालिया निर्माण की तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर कहा कि चीन संभवतः 16 नए भूमिगत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) साइलो का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी, रूसी और चीनी परमाणु ताकत पर लंबे समय से नजर रख रहे हैं। क्रिस्टेनसन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चीन भूमिगत साइलो से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, ताकि वह कोई परमाणु हमला होने की स्थिति में फौरन कार्रवाई करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सके। क्रिस्टेनसन ने कहा कि तस्वीरें संकेत देती हैं कि चीन "अमेरिका से संभवतः बढ़ते खतरे का मुकाबला करने की तैयारी" कर रहा है। अमेरिका अपने नए परमाणु शस्त्रागार के निर्माण के लिए आगामी दो दशक में संकड़ों अरबों डॉलर खर्च को न्यायचित ठहराने के लिए चीन के परमाणु आधुनिकीकरण का हवाला देता रहा है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका और चीन सशस्त्र संघर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिस्टेनसन की रिपोर्ट ऐसे समय में

सामने आई है, जब व्यापार से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई मामलों पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। पेंटागन ने क्रिस्टेनसन के विश्लेषण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने चीनी सैन्य विकास पर पिछली गर्मियों में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि चीन अपने परमाणु बलों की शक्तिताकाल में तत्परता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट' के विश्लेषक क्रिस्टेनसन ने कहा कि उन्हें मिली वाणिज्यिक उग्रह तस्वीरें दर्शाती हैं कि चीन ने उत्तर-मध्य चीन में जिलनलाई के निकट एक बड़े मिसाइल प्रशिक्षण रेंज में 11 भूमिगत साइलो का पिछले साल के अंत से निर्माण आरंभ किया। पांच अन्य साइलो का निर्माण इससे पहले शुरू हुआ। क्रिस्टेनसन ने जिन 16 साइलो को चिह्नित किया है, उनके अलावा भी चीन के पास 18 से 20 साइलो हैं, जिनका वह पुरानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) डीएफ-5 के साथ संचालन करता है। क्रिस्टेनसन ने कहा, "यह रेखांकित करने वाली बात है कि यदि चीन अपने आईसीबीएम साइलो की संख्या दोगुनी या तिगुनी भी कर देता है, तो भी उनकी संख्या अमेरिका एवं रूस के आईसीबीएम साइलों के मुकाबले मामूली रहेगी।" उन्होंने बताया कि अमेरिकी वायुसेना के पास 450 साइलो और रूस के पास 130 साइलो हैं।



## ब्रिटेन की सट्टा कंपनी का दावा, 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस

लंदन। (एजेंसी)।

अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव वर्ष 2024 में होगा है, लेकिन अगले राष्ट्रपति को लेकर अभी से अटकलें लगने लगी हैं। ब्रिटेन की सट्टा कंपनी लैडब्रॉक्स का दावा है कि अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस अगला राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं। कमला हैरिस आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिहाज से पहली पसंद हैं। अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिहाज से पहली पसंद हैं। उनकी जीत की संभावना 22 फीसद है। इस मामले में वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। लैडब्रॉक्स का दावा, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस की जीत की संभावना 22.2 फीसद है। लैडब्रॉक्स के अनुसार, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस की जीत की संभावना 22.2 फीसद है। इसके बाद 20 फीसद की संभावना के साथ 78 वर्षीय बाइडन हैं।



जबकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के जीतने की संभावना 14.3 फीसद है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को बाइडन के हाथों हार मिली थी बता दें कि अमेरिका में गत वर्ष तीन नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को बाइडन के हाथों हार मिली थी। जबकि 56 वर्षीय हैरिस उप राष्ट्रपति चुनी गई थीं। वह अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट्रपति हैं। ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में संकेत दिए कि वह वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने की अपील करते हुए बाइडन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बाइडन प्रशासन के महज एक माह के कार्यकाल में उनका देश 'अमेरिका फर्स्ट' से 'अमेरिका लास्ट' बन गया है। 74 वर्षीय ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में कंजरवेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कार्यक्रम में इसके पर्याप्त संकेत दिए कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। बोले ट्रंप, हम व्हाइट हाउस में लौटेंगे उन्होंने इस सालाना सम्मेलन में समर्थकों से कहा, 'हम व्हाइट हाउस में लौटेंगे।' ट्रंप ने नई पार्टी बनाने की खबरों से इनकार किया और कहा कि इससे उनकी पार्टी के वोटर बंट जाएंगे। उन्होंने आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को हारने के लिए अपने समर्थकों से एकजुट होने की अपील की।

## बॉर्डर पर तनाव के बीच चीनी हैकरों ने भारत के पावरग्रिड सिस्टम को बनाया निशाना

वाशिंगटन। (एजेंसी)।



अमेरिका की एक कंपनी ने अपने हालिया अध्ययन में दावा किया है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान चीन सरकार से जुड़े हैकरों के एक समूह ने "मालवेयर" के जरिए भारत के पावरग्रिड सिस्टम को निशाना बनाया। आशंका है कि पिछले साल मुंबई में बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति ठप होने के पीछे शायद यही मुख्य कारण था। अमेरिका में मैसाचुसेट्स की कंपनी 'रिफॉर्डेड फ्यूचर' ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चीन के समूह 'रेड इको' द्वारा भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया है। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक ग्रिड ठप होने से बिजली गुल हो गयी थी। इससे ट्रेनों भी रास्तों में ही रुक गयी और महामारी के कारण घर से काम बंद लोगों का कार्य भी प्रभावित हुआ और आर्थिक गतिविधियों पर भारी असर पड़ा। आवश्यक सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति बहाल में दो घंटे लगा गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच का आदेश दिया था। 'रिफॉर्डेड फ्यूचर' ने ऑनलाइन सेंधमारी संबंधित रिपोर्ट के

प्रकाशन के पूर्व भारत सरकार के संबंधित विभागों को इस बारे में अवगत कराया। अमेरिकी कंपनी के अध्ययन पर भारत सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक खबर में कहा कि इस खुलासे से सवाल उठा है कि मुंबई में बिजली गुल के पीछे कहीं वीजिंग यह संदेह तो नहीं देना चाहता था कि अगर भारत ने सीमा पर आक्रामक व्यवहार जारी रखा तो क्या हो सकता है। 'रिफॉर्डेड फ्यूचर' की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि कथित रूप से भारत प्रायोजित समूह 'साइडविंडर' ने 2020 में चीनी सेना और सरकारों प्रतिक्रिया को निशाना बनाया। कंपनी की यह रिपोर्ट ऐसे समय आयी है जब चीन और भारत की सेना पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले स्थानों से अपने सैनिकों को पीछे हटा रही है।

## नेपाल में सात मार्च को होगा केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच शक्ति प्रदर्शन

काठमांडू। (एजेंसी)।



नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई का फैसला अब संसद में होगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सात मार्च को संसद के निचले सदन का सत्र बुलाया है। हाल ही में नेपाल सुप्रीम कोर्ट को पांच सदस्यीय पीठ ने निचले सदन को भंग करने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने तेरह दिन के अंदर सत्र बुलाने का निर्देश जारी किया। राष्ट्रपति भंडारी ने बुलाई संसद के निचले सदन की बैठक

सदन बुलाने का निर्णय सरकार की संस्तुति पर किया है। ओली के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए संसद के निचले सदन को बहाल कर दिया। संसद के निचले सदन का सत्र शाम 4 बजे शुरू होगा।

## अमेरिकी रिपोर्ट के बाद जमाल खशोगी की मंगेतर ने लगाई न्याय की गुहार, जानें- क्यों सांसत में आया अमेरिका

अंकारा। (एजेंसी)।

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर हैविस केगिज ने सोमवार को सऊदी क्राउन प्रिंस को बिना देर किए दंडित किए जाने की मांग की है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी सरकार सांसत में पड़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के राजकुमार सलमान बिन मोहम्मद ने ही निर्वासन में रह रहे खशोगी की हत्या की साजिश को मंजूरी दी थी। यह पहली बार है, जब अमेरिकी प्रशासन ने खुले तौर पर खशोगी की हत्या में सलमान बिन मोहम्मद का नाम लिया है। उधर, सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। इसे बेवुनियाद बताया है। खशोगी को लेकर अमेरिका और सऊदी के रिश्तों पर भी आंच आ सकती है। रिपोर्ट के एक दिन पूर्व बाइडन और प्रिंस की वार्ता अमेरिका की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सऊदी के प्रिंस सलमान से शिष्टाचार वार्ता की थी। हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से वार्ता के संबंध में जारी बयान में इस

दौरान पत्रकार की हत्या का मामला सामने आने का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था कि दोनों ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति बाइडन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और यमन में युद्ध को खत्म करने के लिए नए रिश्ते से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रयास पर चर्चा की है। खशोगी की मंगेतर केगिज ने उठाए सवाल हैविस केगिज ने ट्विटर पर कहा कि अगर राजकुमार को दंडित नहीं किया जाता है तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि हत्या का मुख्य आरोपी दंड से दूर हो सकता है। वह सभी को खतरे में डाल सकता है। यह मानवता के लिए एक दग होगा। उन्होंने सवाल के लहजे में कहा कि बाइडन प्रशासन और विश्व के नेता क्या एक ऐसे ब्यक्ति के साथ हाथ मिलाते के लिए तैयार हैं, जो हत्या के लिए दोषी है, जो हत्या का मुख्य आरोपी है। उन्होंने कहा कि राजकुमार को बिना देर किए दंडित किया जाना चाहिए। सऊदी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध, प्रिंस बरी उधर, बाइडन प्रशासन ने खशोगी हत्या में शामिल कुछ

सऊदियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजकुमार को दंड नहीं दिए जाने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि इसकी घोषणा सोमवार को की जाएगी। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि राजकुमार के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की उम्मीद कम ही है। रिपोर्ट जारी होने के बाद बाइडन प्रशासन ने हत्या के जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। 76 सऊदी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश मंत्री ब्लिंगन ने सऊदी अफसरों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का एलान किया है। हालांकि, रिपोर्ट में हत्या के मुख्य आरोपी प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। व्हाइट हाउस का स्टैंड व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी से जब पत्रकारों ने पूछ कि यह खुफिया रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका-सऊदी रिश्ते किस तरह से प्रभावित



करेगी ? तो उन्होंने कहा, वे दस्तावेज मानवाधिकारों के हनन और बोलने की आजादी की कमी के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, हमारा सऊदी अरब से लंबा रिश्ता है और अमेरिका क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ सऊदी अरब का बचाव करना जारी रखेगा।

## संपादकीय

## रोबो का नाटक

वह दौर भी आया, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए भी सृजनात्मक लेखन संभव हो जाएगा। यह एक खुशखबरी ही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए पहले नाटक की रचना हो चुकी है। प्राग स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस कार्य को संभव कर दिखाया है। एआई - वेन अ रोबो राइट्स अ प्ले नामक इस नाटक में एक रोबो की यात्रा कथा है। एक ऐसा रोबो, जो समाज, मानव भावनाओं और यहां तक कि मौत के बारे में जानने के लिए दुनिया में यात्रा पर है। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि स्वयं रोबो शब्द भी सौ साल पहले एक चेक लेखक करेल केप के एक नाटक में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। हम कह सकते हैं कि नाटक में पैदा हुए रोबो ने भी अब अपना पहला नाटक लिख लिया है। दरअसल, यह नाटक लेखन एक एआई सिस्टम जीपीटी-2 की मदद से लिखा गया है। इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फेक न्यूज, छोटी कहानी व कविताएं लिखने के लिए हो चुका है। वैसे अभी इस एआई सिस्टम को बाहरी मदद की जरूरत बहुत पड़ रही है। अभी भाव और कथा के स्तर पर यह सिस्टम भटक जा रहा है। जैसे रोबो लिखते-लिखते यह भूल गया कि नाटक का नायक रोबो है। इसके अलावा रोबो को लिंगभेद में भी समस्या आई। वह भला कैसे तय करता कि वह लड़का है या लड़की। शायद आने वाले समय में रोबो या एआई का भी लिंग निर्धारण करना पड़ेगा। लैंगिक अंतर के साथ ही भाषा भी बदल जाती है, लेकिन रोबो या एआई अभी यह काम नहीं कर पा रहा है। रोबो ने अभी जो नाटक लिखा है, वह अपने तार्किक प्रवाह से भी भटका है। अभी जो स्थिति है, उससे यही लगता है कि एआई सिस्टम पहले से उपलब्ध सूचनाओं और लेखन का मिश्रण तैयार करने में तो सक्षम है, पर उसकी अपनी बुद्धि अभी सृजनात्मक ढंग से नहीं सोच पा रही। मनुष्य को चूंकि नाटक की जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए उसने नाटक लिखा, लेकिन एआई को नाटक लिखने की जरूरत तो कभी महसूस नहीं होगी। उसे तो मनुष्यों के दिमाग के अनुरूप ही काम करना है, लेकिन तब भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि एआई या रोबो आने वाले वर्षों में मानवीय भावना, विचारधारा, भाषा, चेतना, लिंगभेद इत्यादि के ज्ञान से लेस होकर अच्छे लेखन करने लगेगा। वैज्ञानिक देवत जैसे विशेषज्ञ भी हैं, जो इस नाटक को पूरी तरह से एआई का सृजन नहीं मान रहे हैं। वह कहते हैं, मानव की जटिल भावनाओं को समझने और शुरू से अंत तक समन्वय के साथ संतुलित लेखन में सक्षम होने में प्रौद्योगिकी को अभी पंद्रह साल लगेंगे। अभी जो नाटक रचा गया है, उससे लोगों का उत्साह बेशक बढ़ा है, जिससे आगे की राह तैयार होगी। वैसे, एआई के लिखे नाटक दर्शकों के लिए भी चुनौती होंगे। इस नाटक की परियोजना पेश करने वाले चेक उद्यमी और एआई के प्रशंसक टॉम स्टेटेनिक नाटक के एक विशेष दृश्य का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक लड़का रोबो को एक चुटकूला सुनाने के लिए कहता है। रोबो सुनाता है, 'जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, आगे चलकर तुम्हारे बेटे और पोते भी मर जाएंगे, लेकिन मैं तब भी यहीं आसपास रहूंगा।' जाहिर है, मशीनी रोबो कभी नहीं मरेगा और उनकी बुद्धिमत्ता मनुष्यों को हमेशा चौंकाती रहेगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है।



## आज के ट्वीट

## भागीदारी

एलीकॉन्पट सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े:

पीएम

## ज्ञान गंगा

## उपासना और साधना

## श्रीराम शर्मा आचार्य

साधना का दूसरा-पक्ष उत्तरार्ध, उपासना है। विविध शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्य इसी प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। शरीर से व्रत, मौन, अस्वाद, ब्रह्मचर्य, तीर्थयात्रा, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, पाठ, बन्ध, मुद्राएं, नेति, धीति, बरित, नीति, बजोली, कपालभाति जैसे क्रियाकृत्य किए जाते हैं। मानसिक साधनाओं में प्रायः सभी चिन्तन परक होती हैं और उनमें कितने ही स्तर के ध्यान करने पड़ते हैं। नादयोग, बिंदुयोग, लययोग, ऋजुयोग, प्राणयोग, हंसयोग, घटचक्र वेधन, कुंडलिनी जागरण जैसे बिना किसी श्रम या उपकरण के किए जाने वाले, मात्र मनोयोग के सहारे संपन्न किए

जाने वाले सभी कृत्य ध्यान योग की श्रेणी में गिने जाते हैं। स्थूल शरीर से श्रमपरक, सूक्ष्म शरीर से चिन्तनपरक उपासनाएं की जाती हैं। कारण शरीर तक केवल भावना की पहुंच है। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा का भाव भरा समन्वय 'भक्ति' कहलाता है। प्रेम-संवेदना इसी को कहते हैं। यह स्थिति तर्क से ऊपर है। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। भावनाओं की उमंग भरी लहरें ही अन्तःकरण के मर्मस्थल का स्पर्श कर पाती हैं। मनुष्य के अस्तित्व को तीन हिस्सों में बांटा गया है सूक्ष्म, स्थूल और कारण। यह तीन शरीर माने गए हैं। दृश्य सत्ता के रूप में हाड़-मांस का बना सबको दिखाई पड़ने वाला चलता-फिरता, खात-सोता, स्थूल शरीर है। क्रिया शीलता इसका प्रधान गुण है। इसके

नीचे वह सत्ता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका कार्य समझ और केंद्र मस्तिष्क है। शरीर विज्ञान में अनाटॉमी, फिजियोलॉजी दो विभाजन हैं। मनःशास्त्र को साइकोलॉजी और पैरा-साइकोलॉजी इन दो भागों में बांटा गया है। मन के भी दो भाग हैं एक सचेतन, जो सोचने विचारने के काम आता है और दूसरा अचेतन, जो स्वभाव एवं आदतों का केंद्र है। रक्त संचार, स्वांस-प्रस्वास, आकृति-प्रकृति, निमेष-उन्मेष जैसी स्वसंचालित रहने वाली क्रियाएं इस अचेतन मन की प्रेरणा से ही संभव होती हैं। तीसरा कारण शरीर-भावनाओं का, मान्यताओं एवं आकांक्षाओं का केंद्र है, इसे अंतःकरण कहते हैं। इन्हीं में 'स्व' बनता है। जीवात्मा की मूल सत्ता का सीधा संबंध इसी 'स्व' से है।

## अभिवादन से खुशियों की सौगात



## योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि जो भी रास्ते में मिले, उसे 'राम-राम' जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे आदमी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी आप अगर किसी गांव में चले जाएं, तो आपको भले ही कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन 'राम-राम जी' अवश्य कर लेगा। आयु के हिसाब से अगर सामने वाला बड़ा हुआ तो बाबाजी राम-राम या ताऊ जी राम-राम

जैसा संबोधन मिलेगा और सामने कोई बुजुर्ग महिला हुई तो दादी, राम-राम या ताई, राम-राम की आवाज कानों में पड़ेगी और उतर में सुनाई देगा जीते रहे भाई, खूब नाम हो या जीती रह बेटी, दूधो नहाओ, पुते फली आदि-आदि। लेकिन, जाने क्या हुआ कि महानगरों और शहरों में आकर आदमी 'अभिवादन' का यह संस्कार भूलता जा रहा है। अजीब -सा अजनबीपन हमें दिनादिन घेरता जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी भी अब हेलो और हाय को ही अभिवादन मानने लगी है।

हमारे शास्त्रकारों ने अभिवादन के विषय में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है - अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं। अर्थात् जो अभिवादनशील होते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल की नित्य वृद्धि होती है। इसी के तहत महाभारत के युद्ध के समय का अत्यंत मार्मिक और प्रेरक प्रसंग है - महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी इस घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेवैनी बढ़ जाती है। भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब, श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा - अभी मेरे साथ चलो और श्रीकृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अन्दर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अन्दर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि बेटी, तुम इतनी रात में अकेली यहां कैसे आई हो? क्या तुमको श्रीकृष्ण यहां लेकर आये हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हां, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक-दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा - मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं। और भीष्म हंस पड़े। शिविर से वापस लौटते समय श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार

“ जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ”

जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को आज जीवनदान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन-दुशासन आदि की पत्नियों भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस महायुद्ध की नौबत ही न आती। वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने-अनजाने अक्सर घर के बड़ों की हमसे उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुरा प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी भी कोई वलेश ही न हो।

मेरा अनुभव यही है कि बड़ों के दिये हुए आशीर्वाद रक्षा-कवच की तरह काम करते हैं और उनको कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं भेद सकता। सही मायनों में तो यह हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी अनूठी देन है, जो बिना जाने ही, अनजान को भी अपना बना देती है। महाकवि जय शंकरप्रसाद की कामायनी का मूल मंत्र यही अपनत्व की अजेय संस्कृति ही तो है, जब मनु को श्रद्धा कहती है - औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ।

सच तो यही है कि आत्मीयता की इस संस्कृति को अगर हम सभी जीवन में अपनाया सुनिश्चित कर लें तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। आइए, संकल्प करें कि हम हर व्यक्ति को उसकी आयु के अनुरूप यथायोग्य अभिवादन करके अपनी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि सुनिश्चित जरूर करेंगे। किसी को नमस्कार, राम-राम या गुड मॉर्निंग कहने से अगर हमारा दिल खुशियों से भर सके तो फिर कैसा हिलचिकिचाया? आप सबको नमस्कार!

## विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस पर विशेष/ - डॉ. रमेश ठाकुर

कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा, हुकूमत की पहली प्राथमिकता होती है। आज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है जिसका मकसद व उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना और आम नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति सचेत करना है। नागरिक सुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान में कई स्वीच्छक संगठन ईमानदारी से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सिविल डिफेंस और होमगार्ड ऐसी यूनिटें हैं जो आम नागरिकों की सुरक्षा से सीधा वास्ता रखती हैं। लेकिन, इनकी कार्यशैलियों में बीते कुछ वर्षों में खासा बदलाव आया है, जिनके कारण कुछ ऐसे भी हैं जिसपर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकती। मौते तौर पर कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस को अब पहुंच वाले लोगों की निजी सेवा में ज्यादा व्यस्त कर दिया है जिनमें रसूखदार, बड़े अफसर व सफेदपोश आदि वर्ग मुख्य रूप से शामिल हैं। उनकी रखवाली के अलावा सरकारी कार्यालयों की रक्षा के लिए भी सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों की सेवाएं ली जाती हैं। काबिलेगौर बात ये है कि ऐसा करने से आम आदमी की सुरक्षा कहीं गायब हो जाती है। जबकि पहला अधिकार उसी का है। सिविल डिफेंस जैसे संगठनों की स्थापना आम लोगों की सुरक्षा के लिए हुई थी। सिविल डिफेंस से जुड़े सुरक्षाकर्मियों का वास्तविक उद्देश्य संकट के समय नागरिक आबादी के रक्षक के रूप में कार्य करना होता है। क्योंकि नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड देश की रक्षा के लिए जुड़ा स्वीच्छक संगठन है। ये संगठन आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर परिलक्षित है और उन्हीं पर आधारित भी हैं। सिविल डिफेंस कर्मियों का अदम्य साहस सदैव प्रभावित करता है। चाहे कुदरती आपदाएं हों या मानवीय हिमाकतें, हर जगह जान की बाजी लगा देते हैं। संकट के डरावने माहौल में जब सरकार का सुरक्षा तंत्र भी हांपने लगता है, तब ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। जान की परवाह किए बिना कूद पड़ते हैं। सिविल डिफेंस का कोरोना काल जैसे संकट में भी समूचे हिंदुस्तान ने साहस देखा। लॉकडाउन में जब हम घरों में कैद थे, जब भी ये लोग हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले थे। सिविल डिफेंस की स्थापना सन् 1962 में हुई थी, तब से लेकर आज तक लंबा सफर तय किया है। ये संगठन केंद्र सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत है। पुलिस, सेना आदि सुरक्षा एजेंसियों के मुकाबले इन्हें कमतर नहीं आंक सकते। बेशक, उनके जैसी सरकारी सुविधाएँ इन्हें नसीब न होती हैं। बावजूद इनके कार्य करने की दीवानगी में कमी नहीं दिखती। सिविल डिफेंस का संपूर्ण इतिहास देखें तो

प्रारंभ में, केवल चार खंड हुआ करते थे। जैसे, फायर सेक्शन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड और कम्युनिकेशन सेक्शन। इनके दो खंडों को बाद में अलग तरह से परिभाषित किया गया। अब, होम गार्ड को सितंबर 2004 को महानिदेशक, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया बल और नागरिक सुरक्षा के रूप में फिर से नामित किया गया था। वहीं, सिविल डिफेंस को भी दिसंबर 2006 में महानिदेशक, राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया बल और नागरिक सुरक्षा के रूप में समूह किया गया। सिविल डिफेंस और होमगार्ड जैसे नागरिक सुरक्षा खंडों के अलावा नागरिक सुरक्षा का एक और मुख्य किरदार है अग्निशमन सेवा। अग्निशमन सेवा विंग को भी कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहरहाल, नागरिक सुरक्षा को नए तरीके से परिभाषित करने की दरकार है। हाल ही में देश के कई हिस्सों में मॉब लीचिंग की दर्दनाक कई घटनाएँ हुई हैं। वे घटनाएँ रोकी भी जा सकती थीं, अगर सुरक्षा सिस्टम ठीक से काम करता। सिविल डिफेंस को विस्तार देने की आवश्यकता है। पुलिस-सेना की भांति अधिकृत रूप से सिविल डिफेंस की तैनाती हो और उन्हें थोड़े-बहुत अधिकार भी दिए जाएं। सिविल डिफेंस को सीमित अधिकार दिए गए हैं। स्थिति अब और खराब हो गई है। इस संगठन से जुड़े लोगों को दिहाड़ी-मजदूर समझा जाता है। जरूरत पड़ने पर ही इन्हें याद किया जाता है। यह एक अजीब और पुराना तरीका है जिसकी प्रासंगिकता समाज में स्थिरता आने और कानून-व्यवस्था के ऊपर भरोसे के लिहाज से समाप्त हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि नागरिक सुरक्षा के लिहाज से सिविल डिफेंस की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का मतलब होता है। इस विषय पर समूचे संसार को समान रूप से मनन-मंथन करना चाहिए। क्योंकि सामूहिक सुरक्षा हेतु एकत्रित राष्ट्रों के बीच सुरक्षा संबंधित मुद्दा बाती को लेकर समान विचार होना चाहिए। साथ ही सामूहिक सुरक्षा से संबद्ध राष्ट्रों को इस कार्यवाही हेतु अपने परस्पर विरोधी विचारों को भी त्यागना

ShareChat

## विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस



WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

WORLD CIVIL DEFENCE DAY

चाहिए। नागरिक सुरक्षा से जुड़े राष्ट्र मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति बनाये रखने के तो पक्षधर दिखते हैं। पर, जब आम नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो वहां लंबी खाई खिंच जाती है। जब तक आम नागरिकों की सुरक्षा पर मंथन नहीं होगा, नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाने के कोई मायने नहीं हो सकते। आम लोगों की सुरक्षा किसी भी हुकूमत के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी-कभार ऐसा भी प्रतीत होता है सिस्टम में बैठे लोगों को अपनी सुरक्षा की परवाह ज्यादा रहती है। इसकी तस्वीर देखने को भी मिलती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपालों की बात न भी करें, मोहल्ले के पाषंड को ही ले लें।

उन्की सुरक्षा में भी दर्जनों सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं। जबकि एक जमाना था, जब स्थानीय जनप्रतिनिधि खुलेआम इलाकों में घूमा करते थे। शायद सुरक्षा रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कुछ भी हो पर आम नागरिकों की सुरक्षा की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नागरिक सुरक्षा के लिए बनाया हुआ तंत्र हिंदुस्तान में बहुत पुराना हो चुका है, थोड़ा बदलाव और उसे आधुनिक किये जाने जाने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

## आज का राशिफल

|         |  |
|---------|--|
| मेघ     | अर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी लेंगे। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।      |
| वृषभ    | पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशांतर की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।    |
| मिथुन   | जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। वाणी की सौम्यता आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।        |
| कर्क    | व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। भारी व्यय की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। |
| सिंह    | आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।           |
| कन्या   | जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको धन लाभ करायेगी। आर्थिक उन्नति के योग हैं। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।   |
| तुला    | व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा।                         |
| वृश्चिक | पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। नए अनुभव मिलेंगे। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।                 |
| धनु     | व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें।                    |
| मकर     | पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आपके पराक्रम तथा प्रभाव में वृद्धि होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।          |
| कुम्भ   | शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।                       |
| मीन     | राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।         |



## पति को कराएं बच्चे की जिम्मेदारी का अहसास

एक मां ही यह बता सकती है कि पेरेंटिंग का अनुभव कितना आनंददायक होता है। अक्सर पुरुष इसे बहुत भारी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और शुरू से उन्हें यह लगता है कि बच्चे का पालन-पोषण मां की जिम्मेदारी होती है।

बच्चे को सही परवरिश देना मां और पिता दोनों का काम होता है, पर बच्चे की परवरिश का जिम्मा मां पर ही आता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति को भी बच्चे की जिम्मेदारी का अहसास हो तो इन बातों का ध्यान रखें।

**बताएं आप उनकी मदद लेना चाहती हैं**

बच्चा होने के बाद कुछ पुरुष यह चाहते हैं कि वो बच्चे की देखभाल करें, पर महिलाएं अक्सर इस संकोच में कि बच्चे का काम पति सही ढंग से कर पाएंगे या नहीं, सोच उनको मना कर देती हैं। अगर आपके पति बच्चे के पालन-पोषण में आपकी मदद करना चाहते हैं तो उनका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लें। उन्हें अपने तरीके से बच्चों को केयर करने दें, हर समय टोकें न, अगर वो कहीं गलत है, तो उन्हें प्यार से बताएं।

**भूमिका आनंददायक है**

एक मां ही यह बता सकती है कि पेरेंटिंग का अनुभव कितना

**गुप बनाएं पिता भी**

पुरुष अक्सर बच्चों के बारे में बात करने से बचते हैं। महिलाएं तो कई बार गुप में जाकर बच्चों की परेशानियां, आदतें आदि के बारे में चर्चा कर लेती हैं, पर पिता को ऐसा नहीं करते। आप पति को प्रोत्साहित करें कि वो फेसबुक, ब्लॉग, फ्रेंड सर्कल में पिताओं के गुप में शामिल हों। इससे वो सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, साथ ही अन्य पुरुषों से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और उनके अनुभव से सीख सकते हैं।

**प्राथमिकता निर्धारित कर उनसे सहयोग मांगें**

मां होने के नाते आप प्राथमिकता तय कर लें कि किन-किन बातों में आपको अपने पति की जरूरत पड़ सकती है। यह निर्धारित करने के बाद आप उन्हें बताएं कि आपको उनके सहयोग की कितनी जरूरत है। ऐसा करने से आप एक अच्छा वक्त एक-दूसरे के साथ बिता सकते हैं।

**यादों को रखें सहेज कर**

आप अपने पति से पूछें कि फादरहुड के दौरान वो कौन-सी पांच बातें थीं, जिनसे उन्हें बेहद खुशी मिली। आप उन सारी बातों को एक छोटी-सी नोटबुक में नोट करें। अगर उससे जुड़ी फोटो आपको पास है तो उसे भी चिपकाएं, ऐसा करने से आप इन छोटी-छोटी और प्यारी बातों को ताज़ा सहेज कर रख सकेंगे।

आनंददायक होता है। अक्सर पुरुष इसे बहुत भारी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और शुरू से उन्हें यह लगता है कि बच्चे का पालन-पोषण मां की जिम्मेदारी होती है। आप उन्हें बताएं कि एक बच्चे की देखभाल करने में जिम्मेदारी तो है, पर इसमें आनंद भी खूब है। बच्चा जब छोटी-छोटी हकतें करता है तो उन्हें देखने में कितना मजा आता है। इस तरह की बातें जब आप उनसे शेयर करेंगी तो वो खुद ब खुद इसमें रूचि दिखाने लगेंगे।

## चमकाएं बाल और त्वचा

अगर आप चमकदार त्वचा और हैल्दी हेयर चाहते हैं तो अपनी फूड लिस्ट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये चीजें आपको खूबसूरती के साथ-साथ बढ़िया सेहत से भी नवाजेंगी।

**विटामिन ए से भरपूर चीजें**

व्यालें: गाजर, पालक, ब्रोकली, पपीता, आम, आलू व टमाटर

फायदा: इन चीजों में कैरोटीन होता है, जो सनस्क्रीन का काम करता है और त्वचा को धूप से बचाता है। टमाटर में लाइकोपीन भी सनस्क्रीन का काम करता है, लेकिन जरूरी है कि टमाटर अच्छे से पका हो।

**सूखे मेवे**

फायदा: इनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है जो त्वचा में नमी बनाए रखता है। अखरोट में बायोटीन होता है जो बालों को बढ़ाता है, झड़ने और दो मुह होने से रोकता है।

**विटामिन सी वाली चीजें**

फायदा: नींबू, आंवले, संतरे का खट्टापन शरीर में जाकर कोलेजन बनाता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को जवां रखता है, इससे झुर्रियां नहीं पड़ती और त्वचा के घाव भी जल्दी भरते हैं। विटामिन-सी वाली चीजें आसानी से पच जाती हैं और अधिक मात्रा होने पर यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं।

**अलसी के बीज**

फायदा: खाने को कुरकुरा बनाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर, ओमेगा थ्री फैटी एसिड व विटामिन ई से त्वचा की नमी बनी रहती है, मुँहसे नहीं होते। रोजाना एक चम्मच प्रयोग करें।

**विटामिन बी और कॉपर**

पुरुषों के बालों में सफेदी की शुरुआत दाढ़ी से होती है, जबकि महिलाओं में कनपटी की तरफ से। इसके प्रमुख कारण हैं: चिंता करना, विटामिन बी, आयरन, कॉपर और आयोडीन की कमी। इसके लिए धूम्रपान न करें, मटर, ब्रोकली, ब्राउन राइस, गाँठ गोभी खाएं व ग्रीन टी पीएं।

**तौर-तरीके बदलकर**

## खुश रहना सीखें

मन खुश हो, तो तन दुरुस्त रहता है। इसलिए खुश रहने के लिए इन सुझावों को आजमा कर देखें -

**खुद को एक्सप्रेस करें:** अमरीका की वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने से मन में खुशी के भाव आते हैं।  
**दूसरों के लिए कुछ करें:** फोर्ब्स डॉट कॉम के शोध के मुताबिक दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, अपनों को उपहार देते हैं या उन पर खर्च करते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।

**सकारात्मक सोचें:** अपनी सोच सकारात्मक रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें, जिनसे आपको प्रेरणा मिल सके।

दोस्तों व रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस के वैज्ञानिकों ने 30 साल तक एक लाख लोगों पर शोध के बाद पाया कि शिक्षा, राजनीति, सैलरी और संबंधों में से सबसे ज्यादा खुशी लोगों को अच्छे संबंधों से होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से कई बार मूड चिड़चिड़ा हो जाता है।

## खुद से करें प्यार का वादा

खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, इसलिए अब से आप अपने को हमेशा खूबसूरत मानेंगी। आपके अंदर जो भी खासियत है, उसे और भी निखारेंगी और जो चीजें आपको शर्मिदा महसूस करवाती है, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगी।

नया साल हमें जिंदगी को एक बार फिर नए तरीके से जीने के लिए कहता है। नए साल पर आप अपने से यह वादा करें कि हमेशा अपने आप से प्यार करेंगी।

अब से आपने चाहे कोई हेयरस्टाइल करवाई हो या फिर कोई नई ड्रेस पहनी हो तो उसमें खुद को अच्छा महसूस करेंगी। अपने अंदर यह आत्मविश्वास लाएंगी कि आप जो भी पहन रही हैं, उसमें पूरी तरह परफेक्ट लग रही हैं। खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, इसलिए अब से आप अपने को हमेशा खूबसूरत मानेंगी। आपके अंदर जो भी खासियत है, उसे और भी निखारेंगी और जो चीजें आपको शर्मिदा महसूस करवाती है, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगी।

कुछ महिलाएं अपनी त्वचा के रंग को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहती हैं, पर आप बिल्कुल भी ऐसा न करेंगी। आप अपनी त्वचा के रंग पर परेशान होने के बजाय यह कोशिश करेंगी कि आपकी त्वचा हमेशा ग्लो करती रहे। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है या फिर आपके लुक को लेकर आपका कोई करीबी नकारात्मक कमेंट करता है तो उससे अपना मूड खराब करने की बजाय आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, बल्कि अब से आप अपने दिमाग में इस बात को रखेंगी कि दूसरों को भले आप पसंद न आएँ, पर आप अपने को पसंद करती हैं और

करती रहेंगी। अपने शरीर को पसंद और नापसंद करना आपके हाथों में है। वर्तमान में आपकी बाँड़ी किसी भी शेष में हो, अब से आप उस पर फख करेंगी। यह अलग बात है कि अगर आपका वजन कुछ ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करेंगी, पर अपने शरीर को लेकर सकारात्मक सोच को खत्म बिल्कुल नहीं करेंगी और उसे अच्छा ही मानेंगी। आप हमेशा यह मानेंगी कि आप दिल, दिमाग और शरीर तीनों से बेहद खूबसूरत हैं। भले ही आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो सच मानिए, आप गॉर्जियस दिखेंगी।

एक प्यारी मुस्कुराहट लोगों का ध्यान हमेशा आकर्षित करती है और चेहरे पर भी नूर लाती है। इसलिए अब से चेहरे पर हमेशा तनाव लाने की बजाय मुस्कुराहट बनाए रखेंगी। एक प्यारी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर चार चांद लगा देगी।

अगर आपके बाल हेल्दी या फिर त्वचा का टोन अच्छा है तो उस पर नाज करेंगी। अपनी कमी को देखकर दुखी नहीं होंगी। बाल सफेद हो रहे हैं, उनमें रूसी है तो उन्हें देख-देखकर चिड़ेंगी नहीं, इन्हें दूर करने के उपाय खुशी-खुशी करेंगी।



## आप संवरिए लेकिन जरा संभलकर

खास मौकों पर सज-संवरकर चेहरे की सुंदरता बढ़ाना वैसे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कई बार रोजाना भारी-भरकम मेकअप करने की आदत और पुराने या कम गुणवत्ता वाले ब्यूटी उत्पाद कुछ देर की सुंदरता और लंबे समय की बीमारी लेकर आते हैं।

**ब्लीच**


लोग स्किन की टैनिंग कम करने के लिए या चेहरे के बालों को छिपाने के लिए ब्लीच करते हैं, लेकिन इससे कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है।  
उपाय: ब्लीच को 24 घंटे पहले कान के पीछे लगाकर टेस्ट कर लें, अगर कोई एलर्जी न हो तभी ब्लीच करें। टैनिंग दूर करने के लिए ब्लीच कर रहे हैं तो संतरे, पपीते का पल्प या चंदन पाउडर लगा सकते हैं।

**डियो और परफ्यूम**

डियोडेंट का ज्यादा प्रयोग अंडरआर्म्स की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। खुजली की समस्या हो, परफ्यूम से छींकें आती हों या सांस के रोगी हों तो इनका प्रयोग न करें।  
उपाय: डियो या परफ्यूम में कैमिकल्स होते हैं, इन्हें सीधे बाँड़ी पर न लगाकर कपड़े पर लगाएं।

**आई मेकअप के नुकसान**

अगर आप आई मेकअप करने के बाद आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो ऐसे में बैक्टिरिया कॉनिया तक पहुंच जाता है जिससे कॉर्नियल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कई बार मेकअप करने से बैक्टिरिया का मैग्नेट (डिजली) से संपर्क होता है।



**नेलपॉलिश**

नेलपॉलिश लगाने के बाद हमें नाखूनों की मेल नहीं दिखती जिससे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है।  
उपाय: नाखूनों की सफाई का ध्यान रखें और खाना बनाने या खाने से पहले नेलपॉलिश को सुखा लें।

**फाउंडेशन और ब्लश**

इनके रोजाना प्रयोग से चेहरे के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। त्वचा के अंदर जमी गंदगी और तेल बाहर नहीं आ पाते, जिससे छिद्रों में मवाद जमने से कोल-मुहंसे होने लगते हैं।  
उपाय: ब्यूटी प्रोडक्ट की क्वालिटी का खयाल रखें। त्वचा आँधली है तो वॉटर बेस प्रोडक्ट और रूखी है तो आँधली बेस रिक्शन प्रोडक्ट का प्रयोग करें।





**डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे टूटा**

मुंबई, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी तथा अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने के कारण अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये की विनिमय दर सोमवार को 8 पैसे की गिरावट के साथ प्रति डॉलर 73.55 पर बंद हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.76 पर खुलने के बाद कारोबार के दौरान दिन के उच्चतम स्तर 73.19 रुपये को छू गया। अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट के साथ 73.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय विनिमय दर 73.47 प्रति डॉलर थी। रुपया 25 फरवरी के बाद से 1.6 प्रतिशत कमजोर हुआ है। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड वायदा का भाव 1.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 65.51 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

**अगले वित्त वर्ष में ऋण की मांग दोगुना होकर 9-10 प्रतिशत पर पहुंचेगी : रिपोर्ट**

मुंबई, चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा किए गए उपायों तथा नियामकीय कदमों से अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था को तेजी से उबरने में मदद मिलेगी, जिससे ऋण की मांग में उल्लेखनीय सुधार होगा। क्रिसिल की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में ऋण की मांग चार से पांच प्रतिशत बढ़कर दोगुनी होकर 9-10 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद अनुमान है कि बैंक ऋण में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहेगी। क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक कुण्डन सीतारमन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक ऋण में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। उसके बाद तीसरी तिमाही में इसमें सुधार हुआ। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में ऋण की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रही। चौथी तिमाही में भी पिछली तिमाही की तुलना में ऋण की वृद्धि तीन प्रतिशत रहने की उम्मीद है। जून, 2020 में क्रिसिल ने ऋण की वृद्धि दर शून्य से एक प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। सीतारमन ने कहा कि सरकार की तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसे उपायों से ऋण वृद्धि को समर्थन मिला है।

**ई-कचरे से निकल सकेगा 50 फीसदी सोना-चांदी, आईआईटी दिल्ली की खोज**

नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की शोधकर्ताओं की एक टीम ने ई-कचरे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के लिए स्थायी तकनीक विकसित की है। आईआईटी द्वारा विकसित यह तकनीक केंद्र सरकार की पहल स्मार्ट शहर, स्वच्छ भारत अभियान, और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता को पूरा करेगी। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक विश्व में ई-कचरा 3 से 5 प्रतिशत की वार्षिक दर के साथ बढ़ रहा है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 का कहना है कि वैश्विक स्तर पर 2019 में 53.7 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कचरा उत्पन्न हुआ था, और यह 2030 तक 74.7 एमएमटी तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत ई-कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अकेले 2019 में ही भारत में 3.23 एमएमटी ई-कचरा उत्पन्न किया है। भारत में बढ़ते उपभोक्तावाद के बीच ई-कचरा प्रबंधन कमजोर स्थिति में है। आईआईटी दिल्ली के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कैटेलेटिक रिफ़्रैक्शन इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में यह शोध प्रोफ़ेसर केके पंत के नेतृत्व में किया गया। इस परियोजना को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ई-कचरे में विषाक पदार्थ होते हैं और इसके अनियमित संचय, लैंडफिलिंग, या अनुचित रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएँ से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। आईआईटी दिल्ली ने कहा कि इन ई-कचरे को धातु वस्तु और ऊर्जा उत्पादन के लिए शहरी खान भी माना जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली एक तीन-चरण प्रक्रिया है। सबसे पहले, ई-कचरे को तरल और गैसीय इंधन प्राप्त करने के लिए बांटा जाता है। यह धातु से समृद्ध दोस अंश को अलग कर देता है। अलग होने पर, बचे हुए दोस अवशेषों से 90-95 प्रतिशत शुद्ध धातु मिश्रण और कुछ सामग्री प्राप्त होती है।

**निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिये प्रयास करें, एनएसई की तकनीकी खामी से सबक लेने की जरूरत: सीतारमण**

नयी दिल्ली,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नागरिक लेखा सेवा अधिकारियों से सहज और निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिये स्पष्ट रूपरेखा लाने को कहा। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में हुई प्रौद्योगिकी खामी से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने 45वें नागरिक लेखा दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के बही-खातों पर नजर रखने वाले महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने व्यवस्थित सुधार को अपनाया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार के बही-खातों को पारदर्शी बनाये रखने के लिये सीजीए को बदलते समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा।

उन्होंने कहा, "निर्बाध और सुलभ भुगतान काफी महत्वपूर्ण है... अगर व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद है, तो भी गड़बड़ी हो सकती है। एनएसई में कुछ दिन पहले यह देखने को मिला। वहां प्रौद्योगिकी आधारित गड़बड़ी हुई। इसका किसी ने अनुमान नहीं जताया था लेकिन इस खामियों का हम पर अमर हुआ और उससे सबक लिये जा रहे हैं।" सीतारमण ने कहा, "....इसलिए, इससे सबक लेते हुए, मुझे लगता है कि सुलभ और निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए आपको स्पष्ट रूप से रूपरेखा लानी होगी।" उल्लेखनीय है कि एनएसई में बुधवार को तकनीकी खामी की वजह से शेयर बाजार का कारोबार करीब



चार घंटे रोकना पड़ा। मंत्री ने सुझाव दिया कि सीजीए को अपने काम-काज को लेकर और कागज रहित तथा सुलभ बनना चाहिए। साथ ही व्यवस्था और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल का लक्ष्य रखना चाहिए।

**एसबीआई ने आवास ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6.70 प्रतिशत की**

मुंबई, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (एसबीआई) ने अपने आवास ऋण पर ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। अब बैंक 6.70 प्रतिशत ब्याज पर आवास ऋण की पेशकश कर रहा है। एसबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि नई दरें ऋण की राशि तथा कर्ज लेने वाले के सिबिल स्कोर पर निर्भर करेंगी। इसके तहत ऋण 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध होगा। बैंक ने कहा कि 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज दर 6.70 प्रतिशत होगी। 75 लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर 6.75 प्रतिशत होगी। बैंक की उप प्रबंध निदेशक (खुदरा कारोबार) सलोनी नारायण ने कहा, "हम त्योहारी सीजन विशेषरूप से होली का लाभ लेना चाहते हैं। यह साल का आखिरी महिना है और हम अच्छे आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं।" इसके अलावा बैंक प्रोसेसिंग शुल्क पर भी शत-प्रतिशत छूट दे रहा है। बैंक ने कहा कि ग्राहक योनो ऐप के जरिये भी आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बैंक महिला ग्राहकों को भी ब्याज में विशेष 0.05 प्रतिशत की छूट दे रहा है। नारायण ने कहा कि बैंक को आवास ऋण खंड में किस्त के भुगतान को लेकर कोई चुनौती नहीं दिख रही है। "जो भी दबाव है हमें उसकी जानकारी है और हम ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं।"



**ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का दावा, प्रतिदिन बनाई जा रही 33 किमी सड़क**

नई दिल्ली:

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में राजमार्गों का निर्माण 33 किलोमीटर प्रतिदिन के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। गडकरी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि इस वित्त वर्ष में अभी तक 11,035 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ है जिससे हम यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। गडकरी ने कहा, "हम आज की तारीख तक 11,035 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया है। यह प्रतिदिन 32.85 किलोमीटर बैजता है, जो एक रिकॉर्ड है। मंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा 40 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच सकता है। गडकरी ने कहा कि यह उपलब्धि इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे कोविड-19 महामारी के बीच हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह उपलब्धि मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे के एक मार्ग के निर्माण के विश्व रिकॉर्ड के करीब है। मंत्री ने कहा कि जिस समय उन्होंने मंत्रालय का प्रभार संभाला था उस वक राजमार्ग निर्माण की रफ्तार काफी सुस्त दो किलोमीटर प्रतिदिन थी। 3.85 लाख करोड़ रुपये के निवेश की 406



परियोजनाएं अटकी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कुछ उपायों की वजह से भारतीय बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से बचाया जा सका। गडकरी ने कहा कि अड़चनों को दूर करने और राजमार्ग निर्माण की रफ्तार को तेज करने के लिए काफी प्रयास किए गए। इसके तहत 40,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को रद्द किया गया। इससे

सड़क निर्माण की रफ्तार में तेजी लाई जा सकी। उन्होंने कहा कि अब मंत्रालय मार्च के अंत तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सरकार ने महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य रखा है।

**सेंसेक्स 750 अंक उछला, जीडीपी के सकारात्मक आंकड़ों से निवेशक उत्साहित**

मुंबई,

आर्थिक वृद्धि के सकारात्मक दायरे में आने के साथ बीएसई-सेंसेक्स सोमवार को करीब 750 अंक उछलकर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी में भी 232 अंक से अधिक की तेजी आयी। चालू वित्त वर्ष में शुरू की दो तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि में गिरावट के बाद तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में जीडीपी में वृद्धि दर्ज की गयी है। तीस शेरों वाला बीएसई-सेंसेक्स दोपहर के कारोबार में कुछ समय के लिये 50,000 के ऊपर तक चला गया था। पर अंत में यह 749.85 अंक यानी 1.53 प्रतिशत उछलकर 49,849.84 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 232.40 अंक यानी 1.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,761.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेरों में 29 लाभ में रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रमुख शेरों में पावर

ग्रिड, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक और टाइटन शामिल हैं। इनमें 5.94 प्रतिशत की तेजी आयी। एलकेपी सिन्धोरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, "सकारात्मक वैश्विक रुख और अमेरिका में रिटर्न (ट्रेजरी बिल) उच्च स्तर से नीचे आने से बाजार में जोरदार तेजी आयी। बाजार में उत्साह दिखा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा पेट और विशेष प्रकार के रसायन जैसे क्षेत्रों में लिवाली गतिविधियां देखी गईं।" शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पहले लगातार दो तिमाहियों में इसमें गिरावट दर्ज की गयी थी। विश्लेषकों के अनुसार बिजली खपत, निर्यात, माल ढुलाई, पीएमआई जैसे



आंकड़ें यह संकेत देते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पुनरुद्धार के रास्ते पर लौट रही है। जियोजीत फार्मेशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "घरेलू बाजार में माह के पहले दिन मजबूत शुरुआत हुई। जीडीपी के सकारात्मक दायरे में आने, वाहन बिक्री बढ़ने तथा बेहतर पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स) विनिर्माण आंकड़े से उम्मीद बंधी है।" दूरसंचार को छोड़कर सभी 19 खंडवार सूचकांक लाभ में रहे। बांड बाजारों में कुछ स्थिरता के साथ एशिया के अलावा बाजारों में भी तेजी रही। इसके अलावा, अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज के मामले में कुछ प्रगति की खबर से भी निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.88

प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.39 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 8 पैसे टूटकर 73.55 पर बंद हुई। बीएसई-सेंसेक्स पिछले सप्ताह शुक्रवार को 1,939.32 अंक जबकि एनएसई निफ्टी 568.20 अंक लुढ़क गया था। शेर बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने शुद्ध आधार पर शुक्रवार को 8,295.17 करोड़ रुपये मूल्य के शेर बेचे।

**लगातार पांचवें महीने GST कलेक्शन 1 लाख के पार, फरवरी 2020 से अधिक का संग्रह**

बिजनेस डेस्क:

राजस्व के मोर्चे पर सरकार के लिए खुशखबरी आई है। फरवरी माह में जीएसटी संग्रह (GST collections) 7 फीसदी बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह लगातार ऐसा तीसरा महीना है, जब सरकार को 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी प्राप्त हुआ है। पिछले साल फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपए था। पिछले पांच महीनों से जीएसटी राजस्व में रिकवरी का ट्रेंड बना हुआ है। फरवरी, 2021 में जीएसटी राजे व पिछले साल के समान माह की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ है। जनवरी 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.13 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी राजस्व ने लगातार

पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार का एक रिकॉर्ड था। इससे पहले दिसंबर 2020 में 1 लाख 15 हजार 174 करोड़ के रेवेन्यू के साथ सबसे ज्यादा GST कलेक्शन का रिकॉर्ड बना था। 2020 में केवल 5 महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण 2020 में सिर्फ पांच महीने GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी 2020 में 1 लाख 10 हजार 828 करोड़ रुपए कलेक्शन रहा था। इसके अगले महीने फरवरी में 1 लाख 5 हजार 366 करोड़ रुपए आए थे। अगस्त के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

फरवरी 2021 में GST कलेक्शन के तौर पर सरकार को 1 लाख 19 हजार 847 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। GST प्रणाली लागू होने के बाद यह सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का एक रिकॉर्ड था। इससे पहले दिसंबर 2020 में 1 लाख 15 हजार 174 करोड़ के रेवेन्यू के साथ सबसे ज्यादा GST कलेक्शन का रिकॉर्ड बना था। 2020 में केवल 5 महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण 2020 में सिर्फ पांच महीने GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी 2020 में 1 लाख 10 हजार 828 करोड़ रुपए कलेक्शन रहा था। इसके अगले महीने फरवरी में 1 लाख 5 हजार 366 करोड़ रुपए आए थे। अगस्त के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

**फर्टिलाइजर कंपनियों को जल्द सब्सिडी का पूरा भुगतान संभव, टेक्सटाइल्स सेक्टर को GST में राहत मुक्ति**

बिजनेस डेस्क:

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना संकट के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे सेवे टर्स को उबारने की हरसंभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब फर्टिलाइजर, फुटवियर, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को मार्च 2021 के आखिर तक खाद सब्सिडी का पूरा बकाया भुगतान कर सकती है। बता दें कि फर्टिलाइजर कंपनियों को अब तक सब्सिडी का 86 फीसदी भुगतान किया जा चुका है। फरवरी 2021 में किया था 19 हजार करोड़ रुपए का भुगतान फर्टिलाइजर कंपनियों को खाद सब्सिडी के भुगतान में काफी तेजी आई है। फरवरी 2021 में कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का भुगतान किया गया है। सूत्रों से मिली जा जानकारी के मुताबिक, अब मार्च 2021 में करीब 21,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी भुगतान करने की तैयारी है। कारोबारी साल में अब तक कुल आवंटन का 86 फीसदी सब्सिडी भुगतान हो चुका है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना संकट के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे सेवे टर्स को उबारने की हरसंभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब फर्टिलाइजर, फुटवियर, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को मार्च 2021 के आखिर तक खाद सब्सिडी का पूरा बकाया भुगतान कर सकती है। बता दें कि फर्टिलाइजर कंपनियों को अब तक सब्सिडी का 86 फीसदी भुगतान किया जा चुका है। फरवरी 2021 में किया था 19 हजार करोड़ रुपए का भुगतान फर्टिलाइजर कंपनियों को खाद सब्सिडी के भुगतान में काफी तेजी आई है। फरवरी 2021 में कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का भुगतान किया गया है। सूत्रों से मिली जा जानकारी के मुताबिक, अब मार्च 2021 में करीब 21,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी भुगतान करने की तैयारी है। कारोबारी साल में अब तक कुल आवंटन का 86 फीसदी सब्सिडी भुगतान हो चुका है।

खार्वा एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), नये स्टार्टअप और महिला उद्यमियों के लिये उनके उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण की लागत कम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे वे अपने उत्पादों को प्रमाणित कराने तथा मानकों के अनुरूप बनाये जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे। रेलवे और वाणिज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने डिजिटल तरीके से आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानकीकरण को लेकर देश के रुख में बदलाव हो चुका है। मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिये तीन मंत्र... गति, कौशल और बड़े स्तर पर काम (स्पीड, स्किल और स्केल)...दिये हैं। अब इसमें चौथा... मानक को जोड़ने का समय है।" गोयल ने कहा कि मानकों के परीक्षण की लागत

**स्पॉटिफाई ने के-पॉप की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा निलंबित की**

सियोल।

ग्लोबल स्ट्रीमिंग दिग्गज स्पॉटिफाई ने सोमवार को काकाओ एम द्वारा लाइसेंस प्राप्त के-पॉप टैक्स की स्ट्रीमिंग सेवा को अपने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर निलंबित कर दिया है, क्योंकि उनका लाइसेंस सौदा समाप्त हो गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस कदम के बाद अब वैश्विक के-पॉप (संगीत शैली) प्रशंसकों स्पॉटिफाई के माध्यम से आईयू और एपिक

सहित प्रमुख दक्षिण कोरियाई कलाकारों के गाने नहीं सुन सकेंगे। स्वीडिश कंपनी ने कहा कि वह दक्षिण कोरिया के शीर्ष संगीत वितरक काकाओ एम के साथ एक नए लाइसेंस सौदे पर एक समझौता करने को लेकर विफल रही है। कंपनी का कहना है कि वह पिछले एक से डेढ़ साल से एक अनुबंध हासिल करने के प्रयास कर चुकी है, मगर वह इसमें सफल नहीं हो सकी। योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पॉटिफाई ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया में अपनी संगीत स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की थी। इसने काकाओ एम के मेलन, जीनी म्यूजिक सहित टेलीकॉम ऑपरेटर केटी कॉर्पो और प्रतिद्वंद्वी एस्कें टेलीकॉम के फ्लो सहित स्थापित स्वदेशी सेवाओं को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी किया है। स्पॉटिफाई ने काकाओ एम की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा विश्व स्तर पर प्रदान की थी, लेकिन इसने अब अपने कोरियाई प्लेटफॉर्म पर ऐसी सेवा की पेशकश नहीं की है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अभी तक

इससे संबंधित सौदा नहीं किया है। स्ट्रीमिंग दिग्गज ने आगे कहा कि काकाओ एम के साथ अपने वैश्विक लाइसेंस सौदे की समाप्ति का उसको कोरियाई सेवा के नवीनतम लॉन्च से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि स्पॉटिफाई के साथ ही काकाओ एम दोनों कंपनियों ने कहा कि वे बातचीत जारी रखेंगे। स्पॉटिफाई की कुल 170 बाजारों में 34.5 करोड़ यूजर्स के साथ इसकी प्लेलिस्ट पर छह करोड़ से अधिक गाने हैं।

**उल्लेखनीय रूप से कम की जानी चाहिए। यह व्यवस्था एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप के पहले कुछ साल और महिला उद्यमियों के लिये होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इससे वे अपने उत्पादों को प्रमाणित कराने तथा मानकों के अनुरूप बनाये जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे। रेलवे और वाणिज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने डिजिटल तरीके से आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानकीकरण को लेकर देश के रुख में बदलाव हो चुका है। मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिये तीन मंत्र... गति, कौशल और बड़े स्तर पर काम (स्पीड, स्किल और स्केल)...दिये हैं। अब इसमें चौथा... मानक को जोड़ने का समय है।" गोयल ने कहा कि मानकों के परीक्षण की लागत**

**गोयल ने बीआईएस से एमएसएमई, स्टार्टअप के लिये गुणवत्ता परीक्षण शुल्क में कमी लाने को कहा**

नयी दिल्ली,

उल्लेखनीय रूप से कम की जानी चाहिए। यह व्यवस्था एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप के पहले कुछ साल और महिला उद्यमियों के लिये होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इससे वे अपने उत्पादों को प्रमाणित कराने तथा मानकों के अनुरूप बनाये जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे। रेलवे और वाणिज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने डिजिटल तरीके से आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानकीकरण को लेकर देश के रुख में बदलाव हो चुका है। मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिये तीन मंत्र... गति, कौशल और बड़े स्तर पर काम (स्पीड, स्किल और स्केल)...दिये हैं। अब इसमें चौथा... मानक को जोड़ने का समय है।" गोयल ने कहा कि मानकों के परीक्षण की लागत



उल्लेखनीय रूप से कम की जानी चाहिए। यह व्यवस्था एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप के पहले कुछ साल और महिला उद्यमियों के लिये होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि इससे वे अपने उत्पादों को प्रमाणित कराने तथा मानकों के अनुरूप बनाये जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे। रेलवे और वाणिज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने डिजिटल तरीके से आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानकीकरण को लेकर देश के रुख में बदलाव हो चुका है। मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिये तीन मंत्र... गति, कौशल और बड़े स्तर पर काम (स्पीड, स्किल और स्केल)...दिये हैं। अब इसमें चौथा... मानक को जोड़ने का समय है।" गोयल ने कहा कि मानकों के परीक्षण की लागत



अक्षर की तरह कोई भी सीधी गेंदें नहीं करा सकता : प्रसन्ना

अहमदाबाद। पूर्व भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर और लंबे समय तक मोटेरा स्टैडियम के पिच क्यूरेटर रह चुके धीरज प्रसन्ना ने अक्षर पटेल के उन युवा दिनों को एक बार फिर से याद किया है जब अक्षर ने कैच के लिए मोटेरा का दौरा किया था। पटेल ने तीसरे टेस्ट में 70 रन देकर 11 विकेट लिए और भारत को 10 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। उन्होंने लगातार तीन बार पांच विकेट लिए हैं। भारत के लिए दो टेस्ट मैच खेलने वाले प्रसन्ना ने कहा है कि समय के साथ सीमित ओवरों के क्रिकेट में ढलने और राइट आर्म गेंदबाजी स्टाइल में बदलाव के कारण उन्हें टेस्ट क्रिकेट में काफी मदद मिली है। प्रसन्ना ने कहा, वह अलग है (जो हम थे या अन्य दूसरों से)। अक्षर टी 20 और 50 ओवर के मैचों में खेल रहे हैं। उन्होंने तीनों प्रारूप खेले हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब वह मोटेरा में टयल के लिए आते थे और गुजरात के लिए जूनियर क्रिकेट खेलते थे तब अधिक हाइट होने के बावजूद उनके पास एक अच्छा एक्शन था। लेकिन अब वह थोड़ा साइड आर्म के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें मदद मिली है। वह बहुत इंटेलीजेंट गेंदबाज है। अपनी ऊंचाई के कारण वह गेंद को बहुत अधिक नहीं फ्लाइट नहीं दे।

स्विस ओपन : सेमीफाइनल में आमने सामने हो सकती हैं सिंधू और साइना

बासेल (स्विट्जरलैंड) ।

मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधू मंगलवार से यहां शुरू होने वाले स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पौडियम पर पहुंचने और पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल लय हासिल करके दमदार वापसी करने पर ध्यान देंगी। भारत के पुरुष एकल खिलाड़ियों समीर वर्मा, एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत ने भी क्रमशः 2018, 2016 और 2015 में यहां खिताब जीता था जबकि वी साई प्रणीत पिछले सत्र में उप-विजेता रहे थे। ये चारों खिलाड़ी 140,000 डॉलर इनामी प्रतियोगिता में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट से ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिताओं की बहाली भी होगी। यहां के सेट जैकबशेल स्थल पर ही ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू ने 2019 में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था। यह कोविड-19 महामारी के व्यवधान से पहले उनका आखिरी खिताब था। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधू पहले दौर में तुर्की की नेस्तीहान इगिट से भिड़ेगी। यहां

उन्की क्वार्टर फाइनल तक रह आसान लग रही है लेकिन अंतिम 8 में उनका मुकाबला पांचवां वरीयता प्राप्त थाई खिलाड़ी बुसानान ओंगबामरंगफान से हो सकता है जिसे उन्होंने जनवरी में टोयोटा थाईलैंड ओपन में हराया था। 2 बार की पूर्व चैंपियन साइना भी सिंधू वाले हॉफ में ही है। सेमीफाइनल में ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने-सामने हो सकती हैं। साइना को हालांकि इससे पहले कोरिया की छठी वरीयता प्राप्त सुंग जी ह्यून और डेनमार्क की चौथी वरीय मिया ब्लिचफेल्ड की चुनौती से पार पाना पड़ सकता है। लंदन ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता साइना पहले दौर में थाईलैंड की पिटायोर्न चाइवान से भिड़ेगी जो वियतनाम के नये कोच मैथियास बो की निगरानी में एक महीने तक अभ्यास करने के बाद यह दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश


करेगी। सात्विक और चिराग टोयोटा। थाईलैंड ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। भारतीय जोड़ी का सामना पहले दौर में स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू ग्रिमले से होगा। सात्विक और अधिनी पोन्पा से भी पिछले टूर्नामेंट में अंतिम चार में पहुंचने के कारण उम्मीदें बंधी हैं लेकिन उन्हें पहले दौर में ही इंडोनेशिया के हाफिज फैजल और ग्लोरिया इमानुएल विजाना की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। पुरुष एकल में शुरू में समीर और श्रीकांत आमने सामने होंगे जबकि प्रणय अपने अभियान की शुरुआत नीदरलैंड के मार्क कालिजोड और सौरभ वर्मा स्वित्जरलैंड के क्रिस्टियन क्रिचमेयर के खिलाफ करेंगे। अजय जयराम का सामना थाईलैंड के रिटीकोम थम्मामिस में आए पारफ्लि कश्यप का स्पेन के पाब्लो एब्रियन से होगा। प्रणीत पहले दौर में इस्हाइल के मिशा जिल्बरमैन से भिड़ेगी। चोट के



विजेता का अगला पेशेवर मुकाबला गोवा में कैसीनो जहाज की छत पर

नई दिल्ली ।

भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेता सिंह का अगला मुकाबला 19 मार्च को गोवा में एक कैसीनो जहाज की छत पर होगा। इस मुकाबले के प्रतिद्वंद्वी की घोषणा अभी नहीं हुई है। पैंतीस साल के गत डब्ल्यूबीओ ऑरिएंटल और डब्ल्यूबीओ एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन विजेता ने नवंबर 2019 में घाना के पूर्व राष्ट्रमंडल चैंपियन चार्ल्स अदामु को दुबई में हराकर लगातार 12वीं जीत दर्ज की थी। इसके बाद से इस भारतीय मुक्केबाज ने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया है। विजेता के प्रमोटर आईओएस बाक्सिंग प्रमोशन ने बयान में कहा कि अब तक अजय पेशेवर



मुक्केबाजी स्टा र विजेता सिंह 19 मार्च को रिंग में वापसी करेंगे अपनी तरह का यह पहला मु क्क ल। मैजिस्टिक प्राइड कैसीनो जहाज की छत पर होगा। मैजिस्टिक प्राइड गोवा के पणजी में मांडवी नदी के किनारे खड़ा जहाज है। आयोजकों की विज्ञप्ति के अनुसार कि यह मुकाबला नियमित पेशेवर मुकाबले के पारंपरिक आयोजन से अलग होगा जिसमें दर्शकों को वेगास शैली के मुक्केबाजी मुकाबले जैसी चमक-धमक और ग्लैमर देखने को मिलेगा। विजेता ने कहा कि

अंतिम टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने जमकर पसीना बहाया

अहमदाबाद ।

कसान विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य राहुने जैसे भारत के शीर्ष क्रिकेटर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट से पूर्व नेट अभ्यास के दौरान जमकर पसीना बहाया। चौथे टेस्ट गुरुवार से खेला जाएगा। बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर डाले वीडियो में कसान कोहली के अलावा उप-कसान राहुने और सीनियर सलामी बल्लेबाज रोहित को नेट्स पर बल्लेबाजी करते देखा जा सकता है। इन तीनों सीनियर बल्लेबाजों ने यहां नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ ड्रिबल और फिलक का अभ्यास किया। मुख्य कोच रवि शास्त्री को रोहित और कोहली के साथ बात करते हुए देखा गया जिसके बाद ये दोनों सीनियर बल्लेबाज आपस में चर्चा करने लगे। इसी मैदान पर दिन-रात के तीसरे टेस्ट में

11 विकेट चटककर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के खिलाफ नेट पर गेंदबाजी करते हुए देखा गया। क्षेत्ररक्षण अभ्यास के दौरान रोहित के बाद दूसरी स्लॉप में खड़े राहुने को अपने दायीं और गोता लगाते हुए एक साथ से कैच लपकते हुए देखा गया। भारतीय टीम को पहले टेस्ट में 227 रन से हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद मेजबान टीम ने वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 317 रन से जीता। पिछले मैच में मोटेरा की बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर इंग्लैंड की टीम दोनों पारियों में 112 और 81 रन पर डेर हो गई और दो दिन में 10 विकेट से हार गई। भारतीय टीम ने रविवार को भी अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था। भारत चार मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है। भारत अंतिम टेस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना उतरेगा



जिन्हें निजी कारणों से टीम से रिलीज किया गया है।



अदिति अशोक गेरब्रिज एलपीजीए टूर्नामेंट में संयुक्त 48वें स्थान पर

ओरलैंडो । भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने बोगीरहित दो अंडर 70 का स्कोर करके गेनब्रिज एलपीजीए टूर्नामेंट में संयुक्त 48वां स्थान हासिल किया। पिछले चार साल से एलपीजीए टूर से बाहर अदिति ने आखिरी चार दौर में एक ओवर 289 का स्कोर किया। नैली कोरडा ने बोगीरहित तीन अंडर 69 का स्कोर करके खिताब जीता। उनका कुल स्कोर 16 अंडर 272 रहा। दुनिया की नंबर एक कोरिया की जिन यंग चौथे स्थान पर रही।

संक्षिप्त समाचार



बैडमिंटन : वरुण और मालविका युगांडा इंटरनेशनल में बने चैंपियन

बैडमिंटन : वरुण और मालविका युगांडा इंटरनेशनल में बने चैंपियनकंपाला, 1 मार्च (आईएनएस)। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी वरुण कपूर और मालविका बनसोड़ सोमवार को पुरुष तथा महिला वर्ग में अपने-अपने मुकाबले जीत युगांडा इंटरनेशनल में चैंपियन बने। जूनियर विश्व रैंकिंग के दूसरे नंबर के खिलाड़ी वरुण ने फाइनल में सातवां सीड शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21, 21-17 से हराया और अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता। महिला वर्ग में मालविका ने अनुपमा उपाध्याय को 17-21, 25-23, 21-10 से हराकर एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। 17 वर्षीय वरुण ने पहले गेम आसानी से जीता जबकि दूसरे गेम में वह पिछड़ गए। लेकिन तीसरे गेम में उन्होंने वापसी की और यह गेम अपने नाम कर चैंपियन बने। 19 वर्षीय मालविका पहले गेम में पिछड़ी लेकिन उन्होंने अपने दोनों गेम अपने नाम कर जीत हासिल की। शंकर और अनुपमा को रजत से संतोष करना पड़ा। चार दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में भारत, जर्मनी के साथ अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया।

अश्विन की भारतीय वनडे टीम में वापसी होनी चाहिए : हॉग

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर जेड हॉग ने सोमवार को कहा कि भारत को इंग्लैंड के साथ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल करना चाहिए। एक फैन ने सोशल मीडिया पर हॉग से पूछा कि क्या अश्विन को भारत की वनडे टीम में होना चाहिए तो हॉग ने जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प है। इससे बैटिंग लाइन अप में गहराई आएगी और टॉप ऑर्डर और खुलकर बल्लेबाजी कर सकेगा। इसके अलावा गेंदबाजी में भी वह एक विकेट टेकिंग विकल्प है जिनकी इस्कॉनमी रेट भी काफी अच्छी है। उनकी वनडे टीम में वापसी होनी चाहिए। 34 साल के अश्विन ने भारत के लिए अब तक कुल 111 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 32.91 की स्ट्राइक रेट और 4.92 की इस्कॉनमी रेट से 150 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे जून 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था।

भारत ने जर्मनी को 6-1 से हराकर अंतरराष्ट्रीय हॉकी में शानदार वापसी की

फ्रेफ़ल्ड (जर्मनी) ।

युवा खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद के एक मिनट के अंदर किये गये दो गोल के साथ पूरी टीम की शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय हॉकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करते हुए रविवार को यहां जर्मनी को 6-1 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए विवेक (27वें और 28वें मिनट) के अलावा, नीलकांत शर्मा (13 वें मिनट), ललित कुमार उपाध्याय (41 वें मिनट), आकाशदीप सिंह (42 वें मिनट) और हरमनजीत सिंह (47 वें मिनट) ने गोल किए। लंबे समय

के बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम शुरू से आक्रामक खेल का सहारा लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे जिससे जर्मनी की टीम दबाव में आ गयी। भारत को आक्रामक खेल का फायदा पहले क्वार्टर के 13वें मिनट में मिला जब नीलकांत शर्मा ने पेनल्टी कान्न को गोल में बदल कर टीम का खाता खोला। इसके अगले ही मिनट में हालांकि जर्मनी के कोस्टेड्याइन स्टेब ने बराबरी का गोल दाग दिया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत मेजबानों ने भारत पर दबाव बनाने के साथ लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। भारतीय टीम ने हालांकि इसका शानदार बचाव करते हुए

जवाबी हमला किया जिससे मिडफील्डर विवेक ने 27वें और 28वें मिनट में दो गोल दागे। जर्मनी ने तीसरे क्वार्टर में भी भारत पर दबाव बनाये रखा और टीम ने छह पेनल्टी कान्न हासिल किये। कसान और गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हालांकि जर्मनी को गोल नहीं करने दिया। रक्षापत्ति की शानदार खेल के बाद भारतीय अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ललित और आकाशदीप ने 41वें और 42वें मिनट में दो गोल कर विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज टीम का मैच में प्रभुत्व बना दिया। आखिरी क्वार्टर में मैच के 47 मिनट में भारतीय टीम पेनल्टी कान्न हासिल करने में सफल रही

फ्रीडे शतरंज रैंकिंग - विश्व चैम्पियन कार्लसन की रेटिंग घटी पर अमी भी चोटी पर कायम



मॉस्को , रूस (निकलेश जैन ) विश्व शतरंज संघ के द्वारा मार्च माह की फ्रीडे विश्व रैंकिंग जारी कर दी गयी है। लंबे समय बाद ऑन ड बोर्ड मुकाबलों की वापसी ने विश्व रैंकिंग पर भी अपना असर दिखाया है। टाटा स्टील मास्टर्स में अपने खराब प्रदर्शन का खामियाजा विश्व चैम्पियन मैगनस कार्लसन को 15 अंको के नुकसान से उठाना पड़ा है हालांकि अभी भी वह 2847 अंको के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और दूसरे स्थान पर चल रहे अमेरिका के फबियानो करुआना, 2820 अंक से 27 अंको की बढ़त पर है और पहले स्थान पर काबिज है। टॉप 10 में चीन के डिंग लीरन 2791 अंक , रूस के इवान नेपोनिचो 2789 अंक , अमेरिका के लेवोन अरोनियन 2781 अंक , रूस के अलेक्जेंडर ग्रिसचुक 2777 अंक , नीदरलैंड के अनोश गिरि 2776 अंक , अजरबैजान के शाखिरय ममेथारोव 2770 अंक , अमेरिका के वेसली सो 2770 अंक और अजरबैजान के तैमूर रदजाबोव 2765 अंक के साथ क्रमशः तीसरे से दसवें स्थान पर है। भारतीय खिलाड़ियों में अभी भी 5 बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद सबसे आगे है , विश्व रैंकिंग में आनंद 2753 अंको के साथ 17वें , पेंताला हरिकृष्णा 2730 अंको के साथ 21वें और विदित गुजराती 2726 अंको के साथ 23वें स्थान पर है। शीर्ष 100 में इनके अलावा 2659 अंको के साथ अधिवन भास्करन 82 वें स्थान पर है। महिला शतरंज रैंकिंग में कोई मैच ना होने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और चीन की हाऊ इंफान 2658 अंको के साथ पहले , रूस के आलेक्सान्द्रा गोर्याचकिना 2593 अंको के साथ दूसरे तो भारत की कोनेर हप्पी 2586 अंको के साथ तीसरे स्थान पर कायम है जबकि भारत की हरिका द्रोणावली 2515 अंको के साथ टॉप 10 में शामिल है। देश की बात करे तो रूस , अमेरिका और चीन के बाद भारत महिला और पुरुष वर्ग दोनों में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर बना हुआ है

झारखण्ड करेगा सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी की मेजबानी

रांची। झारखण्ड 10 से 18 मार्च तक सिमडेगा में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जिसमें 21 टीमों हिस्सा लेंगी, इस टूर्नामेंट से युवा महिला खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट में 350 खिलाड़ियों के साथ कोचिंग एवं सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे और दो डक्टरों को स्थल पर तैनात किया जाएगा।



लीग चरण का टेबल टॉपर बना मुम्बई, AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई

पणजी ।

मुम्बई सिटी एफसी ने रविवार को बोम्बोलिमन के जीएमसी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन एटीकेएमबी को 2-0 से हराकर हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन के लीग चरण का टेबल टॉपर बनने का गौरव हासिल कर लिया। इसके साथ ही मुम्बई सिटी एफसी ने एफएसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। इस जीत के साथ मुम्बई ने 40 अंकों के साथ 11 टीमों की

तालिका में पहला स्थान हासिल किया। 40 अंकों के साथ ही मौजूदा चैंपियन एटीकेएमबी दूसरे स्थान पर रहे। इसका कारण यह रहा कि गोल अंतर के लिहाज से मुम्बई बेहतर स्थिति में है। नार्थईस्ट युनाइटेड एफसी ने 33 और एफसी गोवा ने 31 अंकों के साथ प्लेआफ का टिकट कटया है। प्लेऑफ मुकाबले 5 से 9 मार्च के बीच खेले जायेंगे जबकि फाइनल 13 मार्च को होगा। 20वें और अंतिम चरण के मुकाबले के बाद मुम्बई के खाते में 12 जीत आए। इतनी ही जीत एटीकेएमबी के खाते में भी है। दोनों के खाते में चार-चार हार और चार-चार ड्र हैं लेकिन मुम्बई ने जहां दूसरी टीमों के खिलाफ 35 गोल किए हैं और 18 गोल खाए हैं वहीं एटीकेएमबी ने 28 गोल करते हुए 15 गोल खाए हैं। इससे दोनों टीमों के बीच चार गोलों का अंतर पैदा हो गया है। बहरहाल, पहला हाफ मुम्बई के नाम रहा। उसने 2-0 की लीड के साथ यह हाफ समाप्त किया। शुरुआत से ही मुम्बई बेहतर खेल रही थी और इसका फायदा उसे सातवें मिनट में ही मिल गया जब अहमद जाहो द्वारा लिए गए



फॉकिक पर हेडर से गोल कर माउंटेंट फाल ने उसे 1-0 से आगे कर दिया। दूसरी ओर, एटीकेएमबी इस हाफ में संतुष्टि नहीं कर पाए। उसके स्टार डिफेंडर संदेश इंग्राम 19वें मिनट में चोटिल होकर बाहर गए। साथ ही मुम्बई ने उसके स्टार स्ट्राइकर राय कृष्णा को चेक कर रखा था और उन्हें खुलकर खेलने नहीं दे रहे थे। मुम्बई ने कमजोर पड़े एटीकेएमबी के डिफेंस को 39वें मिनट में फिर

भारतीयों में क्रिकेट के प्रति लगाव से मंत्रमुग्ध था : स्टीव वॉ

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा है कि जब वह पहली बार मुंबई आए थे तो वहां पर भारतीयों में क्रिकेट के प्रति लगाव को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों में क्रिकेट के प्रति जश्न को देखकर वह हमेशा मंत्रमुग्ध हुए हैं। स्टीव वॉ ने कैम्ब्रिज क्रिकेट : स्टीव वॉ इन इंडिया शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री में कहा, बॉम्बे या मुंबई (अब) आना मेरे लिए पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से हैरानी भरा था। हर जगह बस लोग थे, कार और बाइक थे और जानवर और चूहे और बिल्लियां पैदल साथ चल रहे थे और यह वैसा ही था, जैसे कि मुझे लग कि मैं कहाँ हूँ? मैं एक अलग दुनिया में हूँ जो मेरे लिए पूरी तरह से हैरानी भरा था। स्टीव वॉ 1986/87 में पहली बार भारत दौर पर आए थे, जब आस्ट्रेलिया की टीम ने भारत का दौरा किया था। उस समय वह एक आलराउंडर के रूप में खेले थे, जहां उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में दो विकेट लेने के अलावा 59 रन भी बनाए। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज क्रिकेट मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि यह डॉक्यूमेंट्री क्रिकेट और फोटोग्राफी के प्रति मेरे जूनून को दर्शाती है। 1986 में भारत के पहले दौर के बाद से मैं यह हमेशा जानने के लिए उत्सुक था कि यहां के निवासी क्यों क्रिकेट को लौहाह का रूप मानते हैं? हाल ही में ताजमहल, चित्रास्वामी स्टेडियम, महाराजा लक्ष्मी विलास पैलेस, एचपीसीए स्टेडियम, ओवल मैदान, दिल्ली और कोलकाता के आसपास के स्थानों की मेरी यात्राओं ने मुझे जिंदगी भर के किस्से-कहानियां और न भूलने वाली यादें दी हैं। मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि भारत में जब क्रिकेट फैस इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो वो इस यात्रा को अच्छे से महसूस कर पाएंगे।



# महिला को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा

**अहमदाबाद।** सोमवार को दोपहर के समय आत्महत्या करने के इरादे से साबरमती नदी में कूद गई एक महिला को फायर ब्रिगेड के जवानों ने तुरंत पहुंचकर बचा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, महिला को एलिसब्रिज के पास से बचा लिया गया। वह रिवरफ्रंट के वाक-वे पर ही नदी में कूद गई होने का माना जा रहा है। उनको रेस्क्यू करके हाल वीएस अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि, सदमे में होने की वजह से वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, नदी में कूद गई महिला रायपुर की होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि, उसने क्यों नदी में छलांग लगाई थी

इसकी जानकारी उनका निवेदन दर्ज हो इसके बाद ही जानकारी मिलेगी। नदी से बाहर निकालने के बाद भी महिला इतने सदमे में थी कि वह फायर ब्रिगेड की नाव पर शांत बैठ रही। उनको शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड के एक जवान ने सिर पर हाथ घुमाकर उनके साथ बात की। इसके बाद इसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला की स्थिति सामान्य हो इसके बाद में उनका निवेदन लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि, अभी गत सप्ताह में एक युवती ने वैवाहिक जीवन से परेशान होकर साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और उसने

अंतिम कदम उठाने से पहले एक विडियो भी बनाया था, पति को फोन भी किया था। यह विडियो और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ने विशेष चर्चा शुरू कर दी थी और अहमदाबादियों में यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी विशेष चर्चा का विषय बन गया। साबरमती नदी जैसे सुसाइड नोट पॉइंट बन रही हो इस तरह अक्सर इसमें छलांग लगाकर किसी न किसी की आत्महत्या करने के मामले बनते ही रहते हैं। नदी में लोग नहीं कूदे इसके लिए अहमदाबाद के ओवरब्रिज पर जाली भी लगाई गई है। हालांकि, इसके बावजूद भी साबरमती में हो रही आत्महत्या को नहीं रोका जा सका।

# गुजरात यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई

**मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के इमर्जिंग इश्यू पर यह सेमिनार गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया**

**अहमदाबाद।** गुजरात यूनिवर्सिटी की बी.के. स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट स्टडीज के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इंटरलैजेंस द्वारा दो दिवसीय ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 27, 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुई। Bodhi International Journal और Department of Business Intelligence संयुक्त साझेदारी में मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के इमर्जिंग इश्यू पर यह संवाद

आयोजित किया गया। दक्षिण आफ्रिका की नोर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के डॉ. अंकित कथरोटीया ने कारोबारियों को असर करते परिवल और इसमें आ रही मुश्किलों के बारे में चर्चा की गई थी। भारत और दक्षिण आफ्रिका दोनों देशों के बीच सामनता और अंतर पर उन्होंने इस बारे में बताया। भारत में कारोबारियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है इसी वजह से स्टार्टअप प्रवृत्ति में भारत दुनिया के रैंक में नंबर वन है। लंदन से

डॉ. परीन सोमानी ने अपने Inaugural सेशन के भाषण में एक अलग दृष्टिकोण बताया था, उन्होंने आज के युवाओं के लिए एक वनलाइनर मैसेज दिया था जो इस अनुसार था। Be the Change you wish to see in the World and believe in Yourself समापन समारोह में अतिथि विशेष के तौर पर जर्मनी से डेटा विश्लेषक डॉ. समीर रोहडिया ऑनलाइन उपस्थित रहे। उनके मत अनुसार आने वाले 20 साल



big डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है, डेटा विश्लेषण में विशेषज्ञता के बाद विद्यार्थी Red ocean strategy तरफ से blue ocean strategy तरफ जा सकेगा और रोज गार में ज्यादा मौके प्राप्त कर सकेंगे। सेमिनार के अंत में, यह

# टयूशन में गये शिक्षक लापता



को पढ़ाने के लिए घर से निकल गया था। लेकिन वह क्लास में नहीं पहुंचने से एक छात्र ने विशाल के परिजनों को मोबाइल फोन पर पुछा था की आज सर टयूशन क्लास में क्यों नहीं आए हैं! जिससे परिजनों ने विशाल के मोबाइल पर सम्पर्क करने पर उसका फोन बंद आ रहा था। परिवार ने काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चलने पर उसकी पत्नी मनीषा ने डिंडोली पुलिस थाने में विशाल के गुमशुदा हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है। किसी को विशाल के बारे में कोई जानकारी मिले तो डिंडोली पुलिस से सम्पर्क करने के लिए अपिल की गई है।

**सूरत!** नवागाव-डिंडोली स्थित नन्दनवन रो-हाऊस निवाशी विशाल जयंती कडोदवाला (गांधी) यह 2 फरवरी को पत्नी मनीषा को उसके चाचा के घर शादी का प्रसंग होने से काम काज के लिए छोड़ गया था। उसके बाद विशाल 4 फरवरी को अपनी बाईक लेकर अज्ञात स्थित टयूशन क्लास में छात्रों

# एलपीजी सिलिंडर 25 रुपया महंगा होने पर लोगों में नाराजगी

**मार्च महीने की शुरुआत झटके के साथ हुई है, महीने की पहली तारीख को तेल कंपनी सिलिंडर की कीमत निश्चित करती है**

**अहमदाबाद।** आज 1 मार्च है और नए महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में नए नियम लागू हो जाएंगे। सोमवार से कोरोना का टीकाकरण का नया चरण शुरू होगा। जिसके तहत 60 वर्ष से बड़ी उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 85 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहक पुराना आईएफएससी कोड से पैसे का ट्रांजिक्शन नहीं कर सकते हैं। दोनों बैंकों का बैंक

ऑफ बडौदा में मर्जर होने के बाद नियम बदल रहे हैं। मार्च महीने की शुरुआत भारी झटके के साथ हुई है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां सिलिंडर की नई कीमत निश्चित करती है। सोमवार से धरेलू सिलिंडर के लिए आपको 25 रुपया ज्यादा चुकाना पड़ेगा। फरवरी में 18.2 किलोवाला एलपीजी सिलिंडर की कीमत बढ़ गई थी। सोमवार को 25 रुपये की वृद्धि के बाद अब आपको 19.8 रुपये के बदले 21.9 रुपये चुकाने पड़ेंगे। हालांकि 1 मार्च

की शुरुआत पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 28 फरवरी को भी कीमत नहीं बढ़ा है। इसीलिए लगातार दो दिन से लोगों को पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों में राहत मिली है। 1 मार्च से 60 वर्ष से बड़ी उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 85 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में यह टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये में यह

वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बडौदा में मर्जर कर दिया है। बैंकों के मर्जर बाद आज से यानी कि, पहली मार्च से बैंक के नए नियम लागू होंगे। ऐसे में बैंक के पुराना आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा। इसी वजह से विजया और देना बैंक के ग्राहकों को अब बैंक ऑफ बडौदा में जाकर नया आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा। विजया और देना बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बडौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

# विधानसभा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन


**गांधीनगर।** आज पहली मार्च से गुजरात विधानसभा के बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। कोरोना की जह से इस बार विधानसभा में विजिटर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आज शुरू हो रहे सत्र पहले गुजरात कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जिसमें गुजरात कांग्रेस के दो विधायक इमरान खेडावाला और ग्यासुद्दीन शेख ने हाथ में महंगाई के बैनर लेकर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के इमरान खेडावाला और ग्यासुद्दीन शेख पहुंचे विधानसभा में महंगाई, वेत कमी, पेट्रोल-डीजल की कीमत जैसे मुद्दे पर कई बैनर हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। गुजरात कांग्रेस का विरोध देखकर वह विधानसभा में भी

हंगामा करने के मुद्दे में हो ऐसा लग रहा है। वह इस मुद्दे पर वाकआउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक गुलाबसिंह राजपूत साइकिल लेकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन वह बैनर के साथ विरोध दर्ज कराया। बैनर में युवकों को रोज गार देना, पेट्रोल-डीजल की कीमत में वृद्धि, गैस सिलिंडर की कीमत और कृषि बिल का मुद्दा उठाया गया। यह सत्र में भाजपा सरकार के बैनर लेकर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के इमरान खेडावाला और ग्यासुद्दीन शेख पहुंचे विधानसभा में महंगाई, वेत कमी, पेट्रोल-डीजल की कीमत जैसे मुद्दे पर कई बैनर हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। गुजरात कांग्रेस का विरोध देखकर वह विधानसभा में भी बजट सत्र चलेगा।

# गुरुजिन स्मरणोत्सव का समापन भव्य स्तुति और दिव्य पूजन के साथ हुआ

**सूरत।** 18-18 आचार्य भगवंतो निश्रा ने सुबह भव्य स्तुति की और शाम को, आध्यात्मिक शहर में पिछले 27 दिनों से चल रही भक्ति का महान पर्व गुरुजिन स्मरणोत्सव सोमवार को भव्य और दिव्य पूजा के साथ संपन्न हुआ। सोमवार को स्मरणोत्सव के अंतिम दिन एक भव्य स्तवन बैठक में श्री शांति कनक श्रमगोपासक ट्रस्ट ने आध्यात्मिक परिवार ने 18-18 आचार्य भगवंतो और साधु साध्वी भगवंतो के साथ-साथ संपूर्ण त्योहार के शास्त्रीय मार्गदर्शक, आध्यात्म सम्राट पूज्य योगगोपालशुक्लजी महाराज के ऋण को स्वीकार किया। जैनाचार्य अक्षय चंद्रसूरीश्वरजी ने की स्तुति। गुरु योग ने गुरु के

अंतिम दिनों की भावनाओं और गुरुजी के शासन के शब्दों के साथ सौना याय गुरु रण गज जलाई। जैनाचार्य पं.पू. मुक्तिप्रभासुरिजी, पं.पू. श्रेयांसप्रभासुरिजी ने प्रशंसा की। सूरशांति समुदाय के बुजुर्ग जैनाचार्य पं.पू. सोमसुंदरसुरिजी ने उन्हें प्रशंसा में गुरुजिन का अनुसरण करने के लिए कहा, तो उसाही जैनाचार्य पं.पू. कीर्तिशासुरिजी ने गुरुजी के अद्भुत समर्पण की बात की और सकल संघ को सच्चे आचरण के पथ पर चलने का संकल्प लेने को कहा। दोपहर 2 बजे तक चलने वाली स्तवन बैठक आध्यात्मिक शहर में चरित्र की ध्वनि के साथ फिर से शुरू हुई। दोपहर को पढ़ने के लिए पूरे त्योहार का फल समझाया गया था।



शाम को अद्भुत आरती, महापूजा में कब मिलेंगे? स्मारक सेवा मंगलवार से सुबह 6 बजे से शुरू होगी। जिसमें 6 महीने पहले गुरुजी की मूर्ति के साथ सभी सड़कों से गुरुजी की शवयात्रा निकाली गई थी। और रात 9.30 बजे स्तुति होगी। और महा महोत्सव के इतिहास का अंतिम स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जाएगा।

# सूरत की डाइंग मिल की आग को नियंत्रण में लिया गया

**सूरत।** सूरत के पांडेसरा जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित प्रेरणा डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल में रविवार को रात को करीब 9.30 बजे के करीब आग लगने पर भगदड़ मच गई थी। देखते ही देखते में आग ने उग्र रूप धारण कर लेने से फायर की 15 गाड़ी घटनावाली जगह पर पहुंचकर करीब पांच घंटे की मेहनत के बाद आग को नियंत्रण में लिया गया है। लेकिन इस भीषण आग में कोई जनहानि के समाचार नहीं आये है। मिली जानकारी के अनुसार, आग में एक कर्मचारी ने जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदने का समाचार मिल रहा है। फिलहाल

इसे अस्पताल में उपचार के तहत रखा गया है। सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में जीआईडीसी में स्थित प्रेरणा डाइंग और प्रिंटिंग मिल में अचानक तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी। आग लगने के साथ यह मिल में काम करते सभी कर्मचारी मिल के बाहर आ गये। यह आग क्यों लगी यह मिल में काम करते कर्मचारी समझे इसके पहले आग बेकाबू हो गई थी हालांकि, आग लगने पर मिल में भगदड़ मच गई थी। देखते ही देखते में आग बेकाबू होने पर पूरे क्षेत्र में अफरातफरी माहौल खड़ा हो गया। हालांकि आग की जानकारी मिलने पर 3 फायर स्टेशन



की 15 से ज्यादा फायर फाइटर घटना वाली जगह पर भागकर आग को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया। आग इतनी भीषण थी कि, आग की लपटें 3 किलोमीटर दूर से देखने को मिलती थी। जिसे लेकर पूरे क्षेत्र के लोग डर गये। हालांकि, मिल में जवनसील केमिकल और कपड़े का बड़ा जत्था होने को लेकर फायर विभाग को आग पर काबू लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि, आग को नियंत्रण में लेने के लिए ज्यादा फायर फाइटर मदद लेनी पड़े ऐसी संभावना दिखाई दे रही थी। अब आग ज्यादा बेकाबू बने फायर विभाग द्वारा ब्रिगेड कॉल जारी करे ऐसी तैयारी भी फायर विभाग द्वारा तैयारी की गई थी।



**सूरतभूमि, सूरत।** उत्तर गुजरात नाइस लिंबाचिया समाज द्वारा 27/2/2021 के दिन शनिवार दोपहर 3:00 जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें लिंबाचिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अमरोली विस्तार के नए पार्षद राजू भाई भी उपस्थित थे, एवं लिंबाचिया समाज के प्रमुख कनुभाई लिंबाचिया तथा जयदेव भाई मंत्री महेश भाई आर के हाथों दीप प्रज्वलित किया गया। उत्तर गुजरात के लिंबाचिया समाज द्वारा अमरोली विस्तार में युवाओं द्वारा एकदूसरे को पसंद कर फॉर्म भरने का कार्य किया गया।



**सूरतभूमि, सूरत।** डिंडोली सी आर पाटील रोड पर आई लक्ष्मी नारायण सोसायटी विभाग एक में मां विंध्यवासिनी मंदिर पर आज नवयुग भाजपा पार्षदों का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। वार्ड नंबर 27 डिंडोली दक्षिण के पार्षदों द्वारा लोगों को संबोधित किया गया इस अवसर पर सोसायटी के अग्रणीयों द्वारा पार्षदों का स्वागत किया गया।